भारत सरकार से रजिस्टर्ड RNI NO.UPBIL/2021/83001

वार्ष-०३ अंक-३०१ मुरादाबाद, 22 February, 2024 (Thursday)

मूल्य- ०३ रूपये पृष्ठ-०८

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीजीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,अलीगढ़, संभल, श्रावस्ती,अलीगढ़ और उत्तराखंड

कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया

मित्रता निभाना तो श्री कृष्ण और सुदामा से सीखें..

page 7

**HOWTO STYLE** 

#### सीएम ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति संग की बैठक

# डिजिटल बैंकिंग साक्षरता का चलेगा प्रोग्राम : सीएम



लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैंकों का सीडी रेशियो (ऋण जमानुपात) 58.59:

वर्ष में इसे 65: तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा मुहैया कराएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का कवरेज सभी 75 जिलों तक करने के लिए मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया है। बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालु वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद और ऊजार्वान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय

है।ऋण मेलों का यह क्रम आगे भी सतत जारी रहे। बैंक लोन देने में संकोच न करें। सरकार अपनी हर योजना में ऋण दिलाने से पहले लाभार्थी का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी। सीएम योगी ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फैमिली आईडी का जिक्र करते हुए कहा, सभी बैंक, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध कराएं। ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा, जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हर नागरिक को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।विशेष बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय

बीसी सखी) कार्यक्रम की सराहना करते हुए बैंकों को बीसी सिखयों को और प्रोत्साहन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, इस एक कार्यक्रम ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलम्बन बनाने में बडी भूमिका निभाई है और यह फाइनेंशियल इनक्लूजन का शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। वहीं, हालिया पेटीएम पेमेंट बैंक प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सिखयों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया। बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस व प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि 2016-17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग बिजनेस था जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो

ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया, साथ ही 1.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड , 1111 बैंकिंग आउटलेट का शुभारंभ और 10 बीसी सिखयों को टूल किट वितरित किए। बैठक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीजीएम निशा नाम्बियार की भी विशेष उपस्थिति रहीम उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बैंकर्स कमेटी की बैठक राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रत्येक तीन माह में और जनपद में प्रत्येक माह करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एचडीएफसी बैंक द्वारा 150 वनटांगिया गाँवों को अपनाने की प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया। बैंक इन ग्रामों में 75 स्मार्ट क्लासेज का निर्माण के साथ ही ही विकास

#### गुजरात को पीएम मोदी देंगे 48 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाएं



**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। यह यात्रा गुजरात के विकास पर केंद्रित है। वह यहां जीसीएमएमएफ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे, जिसमें अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख से अधिक किसान भी भाग लेंगे। पीएम यहां महेसाणा में भारत नेट के दूसरे चरण के सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 8000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। महेसाणा और बनासकांठा जिलों में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड-गेज लाइन के

लिए कई परियोजनाएं सहित खेड़ा गांधीनगर, अहमदाबाद और महेसाणा में सड़क परियोजनाएंय गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन के साथ बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाओं के साथ कई अन्य विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। बता दे कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे के क्रम में 22 फरवरी को सुबह 10.45 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां वह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के स्वर्ण जयंती समारोह का नेतृत्व करेंगे। समारोह के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12.45 बजे वलीनाथ महादेव मंदिर में पजा के लिए उपस्थित होंगे। इसके तुरंत बाद महेसाणा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वह 8,350 करोड़ रुपये से अधिक मुल्य की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सड़क, रेल ऊर्जा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर सरकार के फोकस पर

#### बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने दिया इस्तीफा

जोर दिया जाएगा।

पटना। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, श्री महेश्वर हजारी ने बुधवार पूर्वाह्न से उपाध्यक्ष का पद त्याग दिया है। श्री हजारी के पद त्यागने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। श्री हजारी राज्य में सत्तारूढ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कल्याणपुर विधानसभा सीट से विधायक है।

## जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन में कर सकते हैं वापसी

**नई दिल्ली।** लोकसभा चुनाव से साथ छोड़ कर एनडीए में शामिल हुए आईपीएस अधिकारी और बीजेपी

पहले दल बदल का सिलसिला चालू हो गया है। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी पाला बदल कर छक। में शामिल हो गए थे लेकिन अब खबर आ रही है कि जयंत का एनडीए से मोहभंग हो गया है। जिससे वो इंडिया में फिर से वापसी कर सकते हैं। लोकसभ चुनाव से पहले

देश में सियासी पारा हाई हो चुका है। इसी कड़ी में दलबदल का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन का बंगाल के संदेशखाली मामले में एक



जयंत चौधरी का अब मन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरसअल पश्चिम

कार्यकताओं के बीच बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो ह्यखालिस्तानीह्न कहे जाने पर काफी गुस्सा हैं और बीजेपी कार्यकताओं पर लीगल एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। इस मामले पर अब जयंत चौधरी ने भी बिना नाम लिए बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताई है। दरसअल जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखादह्लमैं आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा

समझ सकता हं !ह्वहालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं लिखी लेकिन ये पुरा मामला बीजेपी कार्यकताओं के आईपीएस अधिकारी को लेकर खैये से जुड़ा है। इसी बीच अब ये चर्चा भी है कि जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के साथ जाने का अपना मन बदल भी सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर भी वो इस गठबंधन को लेकर बहत साफ कुछ कहते नहीं दिखे हैं। जिसके बाद ये कयास लगाएं जा रहे हैं कि जयंत चौधरी इंडिया में फिर वापसी कर सकते हैं।

## केंद्र किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयारः अर्जुन मुंडा

चंडीगढ़। हरियाणा की सीमाओं पर राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने के लिए तैयार किसानों की भारी भीड़ के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को कहा कि केंद्र सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्स पर लिखा, चौथे दौर के बाद सरकार पांचवें दौर में एमएसपी की गारंटी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली मुद्दा, एफआईआर जैसे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। मैं किसान नेताओं को फिर से चर्चा के लिए आमंत्रित

करता हूं। हमारे लिए शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।ह्व किसान संघ के नेताओं



कर दिया कि यह किसानों के हित में नहीं है। यह घोषणा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने बैठक कर की। तीन केंद्रीय मंत्रियों

- पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय - के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को यह प्रस्ताव दिया।

पांच साल के लिए एमएसपी पर दालें,

मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के

प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज

## इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे कमल हसन

चेन्नई। अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने कमल हसन ने कहा कि वी और उनकी पार्टी ने अभी तक इंडिया गठबंधन का दामन नहीं थामा है। कमल हसन अपनी पार्टी मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) की सातवी वर्षगांठ पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। अभिनेता से राजनीतिज्ञ बने कमल हसन ने मीडियाकर्मियों से कहा कि वो किसी भी ऐसे मोर्चे मे

शामिल नहीं होंगे, जो स्थानीय सामंती राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो। वो एक ऐसे राजनीतिक समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम हो। जब उनसे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अभी तक वार्ता का सिलसिला जारी है। बता दें



कि पहले खबर आई थी कि कमल हसन की पार्टी इंडिया गठबंधन मे शामिल होने जा रही है। इसके अलावा डीएमके उन्हें कोयमबंटूर और चेन्नई में से कोई एक सीट देने के लिए राजी हो चुकी है। इससे पहले यह अटकलें तेज थी कि कमल हसन को सीट आवंटित करने के लिए कांग्रेस को कुछ सीटें देने में कटौती की जा सकती है।

## मोदी के पास किसान की बात सुनने का समय नहीं : प्रियांक खड़गे

बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास मन-की-बात के लिए पर्याप्त समय है लेकिन किसान-की-बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है। मंत्री ने कहा,



जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की सीमाओं पर नाकेबंदी की है, उससे पता चलता है कि सरकार किसानों के मुद्दों को हल करने की इच्छुक नहीं है। उन्होंने यहां संवाददाताओं कहा,प्रधानमंत्री के पास

मशहर हस्तियों को बधाई देने के लिए पर्याप्त समय

हैय उनके पास मन-की-बात के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन किसान-की-बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है।ह्न श्री खड़गे ने कहा कि सिर्फ डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार ने किसानों की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनसे बात करने की जहमत नहीं उठाई है। केंद्र सरकार को किसानों की कोई परवाह नहीं है। किसानों ने भारत रत्न के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन वे डॉ. स्वामीनाथन की सिफारिशों की मांग कर रहे हैं।

## संदेशखाली पर विपक्षी दलों की खामोशी, भाजपा नेता ने पूछे तीखे सवाल

रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में संदेशखाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। भाजपा नेता ने कहा कि संदेशखाली में जो हो रहा है, वह आप सबके सामने है। हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, वह भी आप सबको पता है और वहां पर महिलाओं के साथ क्या-क्या हो रहा है, वो किसी से अब छुपा नहीं है। ममता बनर्जी इसे डिफेंड कर

रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी

नई दिल्ली। भाजपा नेता मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता आरोप लगाते हुए कहा कि अपने हूं कि उन्होंने इसे काफी प्रमुखता



से दिखाया है और पत्रकार की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा भी करता हूं। उन्होंने कहा कि पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे क्या छुपाना चाहती हैं ममता जी और क्यों छुपाना चाहती हैं ममता जी। उन्होंने ममता बनर्जी पर गंभीर

से उन्हें करारा जवाब मिलेगा। पॉलिटिकल करियर को बचाने के

लिए वह महिलाओं की इज्जत-आबरू भी दांव पर लगा रही हैं। क्या ममता बनर्जी का दमन सीपीएम से भी आगे निकल गया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोलकाता से मात्र 75 से 80 किलोमीटर दूर लोगों की जमीन छीनी जा रही है, उनकी फसलों

को बर्बाद किया जा रहा है। उन्हें कोई दूसरा काम नहीं करने दिया जा रहा है। मां-बहनों की इज्जत-आबरू बर्बाद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मंच से इसकी भर्त्सना करती है। ममता बनर्जी को इसका जवाब देना पड़ेगा और राजनीतिक रूप में भी जनता

रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी पार्टियों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि हर मुद्दे पर जमकर बोलने वाले राहुल गांधी संदेशखाली के मुद्दे पर चुप क्यों है। न सिर्फ राहल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी और महान विभूति केजरीवाल भी मौन धारण किए हुए हैं। वहीं, भाजपा सरकार श्बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओश की बात करती है तो उसे पूरा करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। बीजेपी सारे इंडिया गठबंधन के बिखरते हुए नेताओं से सवाल करना चाहती कि आप क्यों खामोश हैं। क्या संदेशखाली की बहनों-माताओं की इज्जत की कोई परवाह नहीं है।

#### जयपुर में 10,465 लीटर नकली घी बरामद, एक गिरफ्तार जयपुर। राजस्थान पुलिस की मिलावटी घी की पैकिंग कर बाजार में छापा मारा। देर रात तक चली इस कार्रवाई

अपराध अन्वेषण शाखा (सीआईडी क्राइम ब्रांच) ने जयपुर में एक गोदाम पर

छापा मारकर 10,465 लीटर नकली घी जब्त किया है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक शहर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में

एक गोदाम में चार नामी ब्रांड के देशी घी के मिलते जुलते नाम और

स्थानीय पुलिस तथा खाद्य विभाग की डिजाइन में घटिया स्तर का नकली व टीम के साथ गोदाम में मंगलवार को

खपाए जाने की सूचना मिच्ली थी। इस में गोदाम से 10,465 लीटर नकली घी पर सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि

गोदाम के संचालक श्रवण सिंह शेखावत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त महानिदेशक (अपराध) दिनेश एमएन ने एक बयान में बताया कि नामी ब्रांड की पैकिंग में नकली देसी घी पैकिंग किए जाने की सूचना मिलने पर वीकेआई स्थित श्री श्याम सेल्स कॉरपोरेशन के गोदाम

पर छापा मारा गया।

कर्नाटकः वकीलों के मुद्दे पर आलोचना के बाद के उपमुख्यमंत्री ने कुमारस्वामी पर बोला हमला बेंगलुरु। रामानगर जिले में तनावपुर्ण स्थिति कहा कि वह और उनके भाई कांग्रेस सांसद

के लिए आलोचना झेलने के बाद कर्नाटक के

उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अधिवक्ताओं के आंदोलन और अन्य कानून-व्यवस्था की

स्थिति के लिए पूर्व सीएम जिम्मेदार हैं। शिवकुमार ने कनकपुरा शहर में आरोपों का जवाब देते हुए

डी.के. सुरेश क्षेत्र में अशांति फैला रहे हैं। वाराणसी

कोर्ट के जज के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट लिखे जाने के बाद रामनगर क्षेत्र में तनाव पैदा हो गया था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब

एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने 40 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिन्होंने पोस्ट

लिखने वाले के खिलाफ मामला दायर किया था। पुलिस सब-इंस्पेक्टर तनवीर हुसैन के निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कुमारस्वामी ने कहा, ह्लमैंने भी इस संबंध में कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करने को लेकर बयान दिया है। विधायकों ने भी यही राय दी है। हमने अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। मैंने निर्देश दिया था कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। भाजपा-जद(एस) नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उनके पास काम नहीं है और वे संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

#### बेगूसरायः झटका मीट का प्रचार करते नजर आए गिरिराज सिंह

**नई दिल्ली।** केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है, जिसमें वह मीट की दुकान का खुद प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लोगों को झटका मीट के लिए प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने पोस्ट करते हुए लिखा, बेगुसराय में कई लोगों से बात की और उन्हें झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित

## Editorial

## Locking horns

Agitating farmers intend to intensify their 'Delhi Chalo' protest from Wednesday as their negotiations with the Gov ernment remain deadlocked. With both sides adamant on their respective positions, it seems unlikely that the stalemate will end in a hurry despite several rounds of dialogue. Foremost among the farmers' demand is the insistence on legal assurances for a minimum support price (MSP) across all crops, coupled with open-ended procurement of 23 key crops under MSP. Additionally, they seek complete debt waiver for both farm ers and farm labourers, along with a re versal of policies perceived as detrimental to their interests. Central to their demands is the implementation of crop prices in line with the recommendations the Dr MS Swaminathan Commission's report. Farmers are pushing for pensions to be extended to both farmers and farm hands, as well as a waiver on any increase in electricity tar iffs. They also seek nationwide enforce ment of the Land Acquisition Act of 2013. The demands extend to the realm of international trade, with calls for India's withdrawal from the World Trade Organisation (WTO) and a freeze on all Free Trade Agreements (FTAs). One may agree or disagree with their demands but these are not unconstitutional. The lat est development in the saga has the farmers rejecting the Government's MSP offer, signalling the resumption of the 'Delhi Chalo' march. The offer which was made in the midst of ongoing negotiations, failed to meet the farmers' expectations. The MSP offer, though presented as a goodwill gesture by the Government, was perceived by farmers as insufficient and lacking concrete assurances. Despite assurances from the Government side regarding the continuation of MSP, farmers remain sceptical that the lack of legal guaran tees and deregulation could eventually lead to the dismantling of the MSP sys tem. The 'Delhi Chalo' march posturing goes back to 2020, when thousands of farmers from various States converged on the outskirts of Delhi to protest against the farm laws. The march gar nered widespread support and attention both nationally and internationally highlighting the gravity of the issues The decision to resume the march underscores the farmers' plan to continue their struggle; it is also a flashback of farmers' siege of the Capital not very long ago. The Government seems to have made the Capital a fortress which however, does not augur well for a democratic system. Dialogue, not con frontation, should be the way forward The farmers must respect the law of the land while the Government should try to assuage their anger. It would be prudent to accept some, if not all, farmer demands so that a conducive atmosphere is built for the talks to continue in a congenial atmosphere. As the protest enters a new phase, it is impera tive for both sides to engage in constructive dialogue to find a viable solution to the impasse. It is a call to action for all stakeholders to prioritise the nation's interests and work towards a

fair and equitable resolution.

# India is on the right track in Nepal

Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) has completed 13 months of his third term, by far the most successful in leading Nepal with the Maoist party with just 32 seats. A seasoned and balanced Nepali journalist billed Prachanda's tenure as 'firm, polished, and people-oriented'. About the power-sharing formula that has become a staple in coalition politics, his assessment was different from that of a senior Nepali Congress parliamentarian who, out of the three options two-one-two; two and a half and two and a half; and Prachanda doing full five years – while not favouring the first option, was hugely critical of it. So was the journalist. The figures indicate the number of years of premiership. The first relates to Prachanda and Deuba doing two years each while Madhav Nepal would get one year. The second is minus Madhav Nepal. The parliamentarian said on any major coalition issues, the Big 3 were former Prime Minister Sher Bahadur Deuba (NC, 89 seats) and Prachanda and former PM Madhav Nepal of the United Socialist (with only ten seats

Prime Minister and not recognised as a national party) ignoring Janata Samajwadi (National) Party with

coming for which Chi-turned into in-yournese leaders will give face warrior diplotheir right arm and a macy by former Amcontingency India will bassador Hou Yanxi



14 seats. He went on to suggest that both Nepal and Yadav should share a year term, however wobbly the arrangement. The wily former Prime Minister KP Oli (CPN UML 80 seats) who did not honour powersharing Prachanda is determined to ensure Madhav Nepal does not become PM for even a day. Incidentally, Prachanda and Deuba have happily shared power earlier. Astutely, Prachanda, while firing salvos at NC, indicating their alliance has not been rewarding for his party, is also suggesting that the option is open of returning to the CPN (UML) fold, a home-

dread. This warning keeps alive the Prachanda premiership for five years. But nothing is done till everything is done. Prachanda's scorecard shows the right boxes are ticked: corruption, people's biggest concern, has been emphatically addressed with top guns or their wards in jail or on bail. Also being investigated is the Pokhara International Airport which involves China trying to inveigle Nepal into its BRI debt trap. It will turn out to be another white elephant like Matale Airport or Hambantota Port in Sri Lanka. China's bullying of Nepal is legendary Gorkha, Sindhulpal

who took Kathmandu for a royal ride. Nepal was browbeaten into accepting the One China policy at the drop of a hat, a former Nepalese diplomat told me. While Tibetans were cowed down in Kathmandu and Pokhara, China has closed down the border in the north since the pandemic. Chinese have indulged in salami-slicing in nine places on the Nepal-China border. A former Madhesi MP informed me that border pillars have been removed, sources diverted and dual-use villages constructed. Encroachments are reported at Dharchul, Mustang, Chowk, Rasua, and Solukhumbu. He said the Government maintains silence, especially the ruling Communists. Ambassador Chen Song and other CPC leaders like Sun Haiyan are brazenly criticising India for "not being a friendly neighbour and not so beneficial for Nepal". Nepal mildly smacked China for violating diplomatic norms. President Xi first visited Nepal in 2019 resulting in the 20 agreements none of which materialised. In 2016, the Trade and Transit Treaty with China following the blockade resulted in China granting access to seven sea and land ports for thirdcountry trade and commerce and promised of alternate source of petroleum. Not a litre was provided. India built a pipeline from Motihari to Amlekhgunj and provided Nepal with its fuel requirements in full. The rail link from Kirung to Kathmandu first mooted in 1973 was followed by a feasibility study in 2018-20. Total silence prevails on Chinese connectivity projects. India submitted the preliminary feasibility report on a rail link with Kathmandu two years ago, Funding has to be worked out. Nepal can

sell power to India to

the order of 452.6 MW plus 108 MW with an additional 10,000 MW in the next ten years This will redress the trade balance. China exported USD1.7bn worth of goods in 2022 while it imported USD5.11 mn and has just reopened some border trade posts. Protests were launched in the first week of February about BRI and the Chinese-built Pokhara airport. When I was in the VIP lounge of the Pokhara airport on 27 November 2023, the carpets were soiled with water leaking. It is also the only airport in Nepal with an aerobridge. But what's the use, since there are no international flights Prachanda has managed foreign relations deftly balancing US and China and India and China.Kathmandu issued a statement that criticised Israel's humanitarian breaches in Gaza as well as called Russia's war against Ukraine an aggression that must stop. Further, he asked Russia to stop enlisting Nepalese nationals into its army. The villain of the piece is India's flawed Agniveer which has shredded the strategic strand in India-Nepal relations. Still, for Delhi, Prachanda is the right horse to back while keeping Deuba in the stable.

#### An epitome of wisdom, service and compassion Shiromani thought, word, and deed. means to empower indi- Ji himself wrote exten- Lobhsangrah). He be- also the future. In Novem-

Ji attained Samadhi and left us all saddened. His life is a spiritually rich epoch graced with profound wisdom, boundless compassion and an unwavering commitment to uplift humanity. I have had the honour of receiving his blessings on numerous occasions. Thus, I feel a deep sense of loss, akin to losing a guiding light that has illuminated the path for countless souls, including myself. His warmth, affection and blessings were not just gestures of goodwill but profound transmissions of spiritual energy, empowering and inspiring all those fortunate enough to have come in contact with him.Pujya Acharya Ji will always be remembered as a Triveni of wisdom, compassion and service. He was a true Tapasvi, whose life epitomised the ideals of Bhagwan Mahavir. His life exemplified the core principles of Jainism, embodying its ideals through his own actions and teachings. His care towards all living beings mirrored Jainism's profound respect for life.He lived a life of truthfulness, reflecting Jainism's emphasis on honesty in

warts like him that the world continues to be inspired by Jainism and the life Bhagwan

contribution. His teachings emphasised the importance of self-study and self-awareness as the



Mahavir. He stood tall among the Jain community but his impact and influence were not limited to only one community. People across faiths, regions and cultures came to him and he worked tirelessly towards spiritual awakening, particularly among the youth. Education was an area very close to his heart. His journey from Vidhyadhar (his childhood name) Vidhyasagar was one of deep commitment to acquiring and imparting knowledge. It was his firm belief that education is the cornerstone of a just and enlightened society.

He championed the

cause of knowledge as a

pathways to true wisdom, urging his followers to engage in lifelong learning and spiritual growth. At the same time, Sant Shiromani Acharya Vidhyasagar Ji Maharaj Ji wanted our youngsters to get an education that is also rooted in our cultural ethos. He often said that it was because we drifted away from the learnings of the past that we were not able to find solutions to key challenges like water scarcity. He also believed that a holistic education is one that focuses on skilling and innovating. He took immense pride in India's linguistic diversity and encouraged youngsters to learn Indian languages.Pujya Acharya

Acharya Shri 108 He also led a very simple viduals, enabling them to sively in Sanskrit, Prakrit lieved that a strong nation ber last year, I had the op-Vidhyasagar Ji Maharaj lifestyle. It is due to stal- lead lives of purpose and and Hindi. The heights he is built on the foundation portunity to visit the reached as a saint, and how grounded he was on the earth, is seen clearly in his iconic work Mookmati. Through his works, he gave a voice to the downtrodden.In the domain of healthcare too, Pujya Acharya Ji's contributions were transformative. He was associated with several efforts, especially in underserved areas. His approach to healthcare was holistic, integrating physical wellbeing with spiritual wellness, thereby addressing the needs of the person as a whole. I would especially urge the coming generations to study extensively about Sant Shiromani Acharya Shri Vidhyasagar Ji Maharaj Ji's commitment to nation building. He would always urge people to rise above any partisan considerations and instead focus on national interest. He was one of the strongest votaries of voting because he saw it as an expression of participation in democratic processes. He advocated healthy as well as clean politics, even saying that policy making has to be about people's welfare, not selfinterest(Lokneeti is about Loksangrahnot

of its citizens' commitment to their duties-towards themselves, their families, society, and the country. He encouraged individuals to cultivate virtues such as honesty, integrity and self-reliance, which he saw as essential for the creation of a just, compassionate, and thriving society. This emphasis on duties is of great importance as we work towards building a Viksit Bharat.In an era where environmental degradation is rampant world over, Pujya Acharya Ji called for a way of life which would minimise the harm being inflicted on nature. Likewise, he saw a paramount role for agriculture in our economy, also stressing on making agriculture modern as well as sustainable. His work towards reforming jail inmates was also noteworthy. The beauty of our land is that for thousands of years, our soil has produced greats who have shown light to others and made our society better. Pujya Acharya Ji stands as a towering figure in this illustrious lineage of saints and social reformers. Whatever he did, he did not just for the present but

Chandragiri Jain Mandir in Dongargarh in Chhattisgarh. Little did I know that this visit would be my last meeting with Pujya Acharya Ji. Those moments were very special. He spoke to me for a long time, blessing me for my efforts in serving the nation. He expressed joy on the direction our nation is taking and the respect India is getting on the world stage. He was filled with enthusiasm while talking about the work he was doing. Then and always, his gentle gaze and serene smile were enough to instill a sense of peace and purpose. His blessings felt like a soothing balm on the soul, a reminder of the divine presence within and around us. Sant Shiromani Acharya Shri 108 Vidhyasagar Ji Maharaj Ji's void is deeply felt by all who knew him and were touched by his teachings and his life. However, he lives on in the hearts and minds of those he inspired In honouring his memory, we commit to embodying the values he espoused. In this way, we not only pay tribute to a great soul but also take forward his mission for our country and people.

## एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा मुखिया

अजहर अली क्यों लिखूं सच अखालेश यादव ने अस्पताल पहुंच कर संभल के

स्वास्थ को लेकर जानकारी ली। इससे पहले अखिलेश यादव ठाकुरद्वारा के विधायक नबावजान खान के घर पहुंचे जहां उन्होंने विधायक के पुत्र सांसद डॉ. शफीक्र्रहमान बर्क मूसा खान और पुत्रवधू को गठबंधन हो चुका है। से मुलाकात की और उनके

आशीर्वाद दिया। बाद में अखिलेश यादव ने सर्किट हाउस पहुंचकर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा की हमारा लोकसभा चुनाव को लेकर

#### नई बाजार में 34 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास

भदोही। नगर पंचायत नईबाजार की अध्यक्ष निर्मला सोनकर ने मंगलवार को कई वार्डों में लगभग 34 लाख रुपयों से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जहां वर्षों से इंटरलाकिंग, नाली, पेयजल के काम नहीं हुए हैं, उनका विकास किया जा रहा है। अधिशासी अधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि शहीद नगर वार्ड मे 300 मीटर इंटरलाकिंग सड़क की मरम्मत, भूमिगत नाली का निर्माण, एमआरएफ सेंटर की चहारदीवारी और वार्डी की क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत कराई जाएगी। एक से दो महीने में सभी निर्माण कार्य पुरे लिए जाएंगे। अध्यक्ष प्रतिनिधि लालता सोनकर के अलावा सभासद रिंकू सोनकर, सुनीता देवी, प्रदीप सोनकर, पीटर सोनकर, प्रभावती देवी, हसनैन अंसारी, राजकुमार बावन, अमित कुमार आदि उपस्थित रहे।

#### रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को फिक्शन शो कहना गलत

चंदौली। सैयदराजा विधायक सुशील सिंह मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर हमलावर रहे। इस दौरान उन्होंने 16 फरवरी को सैयदराजा नेशनल इंटर कालेज में सभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। कहा कि राहुल गांधी ने अयोध्या में सम्पन्न हुए प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए फंक्शन और शो जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट है। श्री सिंह बिछियां स्थित अपने कैम्प कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के बड़े नेता होने के बावजूद संस्कारविहीन बयान देने का काम किया है। 70 साल में कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है। बनारस में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हर-हर महादेव का नारा लगा रहे थे तो राहुल गांधी खामोश थे। उन्होंने एक बार फिर इस उद्घोष को नहीं दोहराया। इससे साफ पता चलता है कि इनकी हिन्दू धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है। चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ने के सवाल पर सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने कहा कि कमल खिलाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। भाजपा यदि मुझे उम्मीदवार के रूप में जिम्मेदारी सौंपती है तो उनके विश्वास को कायम रखने का काम अंतिम दम तक होगा। कहा कि लोकसभा चुनाव-2024 में भाजपा जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी हम सभी एकजुट होकर उसे जिताने का काम करेंगे। कहा कि प्रदेश में इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने की स्थिति में है।

#### मुहम्मदपुर के 200 घरों को 20 दिनों से नहीं मिल रहा पानी

चंदौली। क्षेत्र के महाबलपुर स्थित पानी टंकी पर आधारित मुहम्मदपुर गांव के 200 घरों में बीस दिनों से पेयजलापूर्ति बंद है। पानी आपूर्ति न होने से लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। पड़ाव गोधना सिक्स लेन निर्माण के कारण मुहम्मदपुर की ओर आने वाली पाइप लाइन को बंद किए जाने के कारण यह समस्या आई है। लगातार इसकी शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज होकर गांव के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पानी आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। पड़ाव से गोधना तक सिक्स लेन मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। पिछले दिनों सड़क के किनारे नाले के निर्माण कार्य के लिए खोदाई के दौरान महाबलपुर स्थित पानी टंकी से होने वाले पेयजल आपूर्ति पाइप लाइनों को चंधासी कोलमंडी के समीप बंद कर दिया गया। इस कारण मुहम्मदपुर गांव के दो सौ परिवार की पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। ग्रामीणों ने बताया लगभग बीस दिनों से पेयजल आपूर्ति बंद है। कहा कि पेजयल आपूर्ति बंद होने की शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी है। प्रदर्शन करने वालों में उनैसा बीबी, एखलाक, निजामुद्दीन, रजिया, शौकत अली, फारुख सरदार, शबनम आदि शामिल थे। इस संबंध में जल निगम के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि पेयजल आपूर्ति बाधित होने की जानकारी नहीं थी। जल्द ही समस्या को दूर कर पानी की आपूर्ति बहाल की जाएगी।

#### विश्वनाथ मंदिर की तरह विंध्य धाम का गर्भगृह भी होगा स्वर्ण मंडित

**मिजापुर ।** 20 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण से अंदर की दीवारों को जड़ा जाएगा। हाल ही में मुंबई के एक उद्योगपित ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मिलकर गर्भगृह में सोना जड़वाने का प्रस्ताव दिया है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरह ही विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह भी स्वर्ण मंडित होने जा रहा है। 20 किलोग्राम से अधिक स्वर्ण से अंदर की दीवारों को जड़ा जाएगा। हाल ही में मुंबई के एक उद्योगपति ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मिलकर गर्भगृह में सोना जड़वाने का प्रस्ताव दिया है। नगर विधायक पं रत्नाकर मिश्र की उपस्थिति में इसको लेकर वार्ता हुई है। रविवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। देश ही नहीं विदेश से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के दरबार में आते हैं। मंदिर की व्यवस्था बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए आस्थावान लाखों का देते रहे हैं। विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में डेढ़ क्विंटल से अधिक चांदी की जड़ाई की गई है। गर्भगृह का द्वार, खंभे, दीवारों पर चांदी की परत चढ़ी है। इतना ही नहीं, हाल ही में मुंबई के एक उद्योगपित संजय सिंह ने मंदिर के गर्भगृह में सोना जड़वाने का प्रस्ताव रखा है। जिलाधिकारी और नगर विधायक के साथ उनकी बैठक भी हुई है। इसके बाद सोना लगवाने को लेकर मंदिर के गर्भगृह की मापी इत्यादि भी हुई है।

## कलेक्ट्रेट सभागार में किसान

मुरादाबाद/आसपास

## दिवस का आयोजन किया गया

यूसुफ

मुरादाबाद। जिलाधिकारी श्री मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विद्युत संबंधी फसल मुआवजा, गन्ना भुगतान, बैंक, किसान सम्मान निधि आदि की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया, जिस पर जिलाधिकारी ने किसानों की न्यायोचित समस्याओं का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने सहित किसानों की विभिन्न दिक्कतों के त्वरित निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेशित किया कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनकी सकारात्मक सोच के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाये और जो भी कार्यवाही की जाये उससे संबंधित को भी अवगत कराया जाये तथा उसकी प्रतिलिपि जिला कृषि अधिकारी को भी भेजे। जिलाधिकारी ने कहा कि संवादहीनता नही होनी चाहिए परस्पर आपसी संवाद बनाये रखें और संवेदनशीलता

समस्याओं का न्यायोचित समाधान करें, ताकि किसान दिवस की सार्थकता बनी रहें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों का किसी भी तरह का उत्पीड़न न हों तथा विद्युत विभाग के अधिकारी को निर्देश दिये कि बिजली चोरी के मामलों में गहनता एवं निष्पक्षता के साथ जांच करें। किसान दिवस में बिलारी शुगर मिल द्वारा गन्ना का भुगतान में विलम्ब करने पर जिलाधिकारी ने संबंधित गन्ना मिल प्रबन्धकों को समय से भुगतान करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गन्ना भुगतान में मिलें लापरवाही न बरतें, गन्ने का भुगतान जितना जल्दी हो सके कर दें। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि किसान दिवस में आने वाली समस्याओं को नोट कर उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करें तथा किसानों को भी निरन्तर अवगत कराते रहें। उन्होंने कहा कि कृषक बंधु लिखित में शिकायत फोन नम्बर सहित दें, ताकि शिकायत उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने जो भी शिकायतें आयीं है उनका निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। सभी कृ ताकि फीडबैक भी मिलता रहें। परिस्थितियों के अनुसार लगातार सुधार हो रहा है और होता विकास अधिकारी सुमित यादव, अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, ए०आर० को-आपरेटिव, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अभियन्ता विद्युत ग्रामीण, गन्ना, मण्डी, सिंचाई, शुगर मिल के प्रबन्धक एवं अन्य तथा कृषकगण उपस्थित रहें।

शिकायत के संबंध में जानकारी किसानों को आश्वस्त किया कि षक अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें और मिलते भी रहें उन्होंने कहा कि कोई समस्या है तो उसे बतायें जो निदान संभव होगा किया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि रहेगा। किसान दिवस में मुख्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा० अनिल कंसल सहित जिला कृ षि अधिकारी, जिला उद्यान लोक निर्माण विभाग के एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण

## शौक के लिये अपने पास चाकू

## रखता हूं, हुआ गिरफ़्तार

मुरादाबाद सिटी रिपोर्टर यूसुफ

श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद श्री आशुतोष शुक्ला द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक रेलवे मुरादाबाद के निकट



पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी मुरादाबाद के नेतृत्व में आज दिनांक 21.02 2024 को एक नफर ■अभियुक्त फैजान पुत्र

मुस्लिम उर्फ मुन्ना निवासी मौ० कायस्थान कुन्दरकी थाना कुन्दरकी जिला मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को च्थ 4 / 5 पर बरेली दिशा की ओर अंतिम छोर पर बनी सीमेंट वाली सीट रेलवे स्टेशन मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू व 5050 रुपये नगद सम्बन्धित मू०अ०स० ०४ / २०२४ धारा 380 भादवि बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि में शौक के लिये अपने पास चाकू रखता हूं। गिरफ्तार करने वाली टीमः — 1—30नि0 श्री अशोक कुमार थाना जीआरपी मुरादाबाद। 2-का० 1933 अंकित कुमार थाना जीआरपी मुरादाबाद। ३— ौ श्री वीरेन्द्र कुमार त्व्थ पोस्ट मुरादाबाद। अभियुक्त शातिर किरम का अपराधी है इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य थानो से भी की जा रही है इसकी गिरफ्तारी से निषित ही ट्रेनो रेलवे स्टेशन पर होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

#### ट्रक की टक्कर से पेट्रोल पंप कर्मी की मौत

चित्रकट। सडक किनारे खडे पेट्रोल पंप कर्मचारी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। रैपुरा थाना क्षेत्र के बरहट गांव के पास सड़क किनारे खड़े पेट्रोल पंप कर्मचारी को तेज रफ्तार से आए ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोग जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर, घटनास्थल से भाग रहे चालक को ट्रक समेत पुलिस ने पकड़ लिया है। अहिरा गांव निवासी गउलाल सिंह (42) प्रतिदिन की तरह पेट्रोल पंप में ड्यूटी कर रहा था। इसी बीच किसी काम से गउलाल सड़क पार करने के लिए बाहर आया। सड़क किनारे खड़े होकर वह वाहनों के निकलने का इंतजार कर रहा था तभी प्रयागराज की ओर से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। घटना की जानकारी होते ही सांसद आरके पटेल के पुत्र सुनील सिंह अपने वाहन से घायल कर्मचारी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह पेट्रोल पंप पर कार्य कर परिवार का भरण पोषण करता था। उसके एक पुत्र, एक पुत्री, पत्नी कुंती देवी है।

#### तीरंदाजी में रणविजय और प्रियंका अव्वल

**गाजीपुर।** नगर के स्टेशन बाजार स्थित हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के परिसर में मंगलवार को कॉलेजस्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में इंडिया राउंड में पुरुष वर्ग में रणविजय यादव अव्वल रहे। जबिक विश्वजीत और विजय यादव दूसरे तथा तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में प्रियंका यादवङ्क नंदनी यादव को क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। कंपाउंड प्रतियोगिता में प्रथम निशा मौर्यङ्क पुरुष वर्ग में प्रथम विकास यादव द्वितीय पुरस्कार ताबिश अली को हासिल हुआ। रिर्कव राउंड में आदित्य उपाध्याय अव्वल रहे। प्रतियोगिता में रेफरी की भूमिका नीतीश सिंह, राकेश मौर्या एवं आदिल ने निभाई। इसके पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन प्राचार्य डा अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में विभाग सह प्रचारक दीपक रहे। विशिष्ट अतिथि विश्व हिंदू परिषद के सेवा विभाग के प्रांत सेवा प्रमुख दिनेशचंद्र पांडेय रहे। इस मौके पर अभिषेक तिवारी, डा. संजय कुमार सिंह, डा. अरुण कुमार, डा. अंगद प्रसाद तिवारी, प्रदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

#### खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ी रोडवेज बस, यात्री घायल

सोनभद्र। राबर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के हिंदुआरी के पास सोमवार की देर रात पहले से खड़े टुक में पीछे से रोडवेज बस भिड गई। घटना के वक्त बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। इसमें कई यात्री घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद सभी यात्रियों को दूसरे बस से आगे के लिए रवाना किया गया। विंध्यनगर डिपो की बस वाराणसी से यात्रियों को लेकर सोमवार देर शाम विंध्यनगर (एमपी) के लिए रवाना हुई। रास्ते में करीब 1.30 बजे राबर्सगंज कोतवाली अंतर्गत वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग पर हिंदुआरी मोड़ के पास जैसे ही रोडवेज बस पहुंची, यहां पहले से खड़े ट्रक में पीछे से भिड़ गई। चालक को झपकी लगने के कारण दुर्घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। दुघटना में कई यात्रियों को चोंटे आई। बस में चालक, परिचालक के साथ 40 से अधिक यात्री सवार थे। रात में ही यात्रियों का अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया गया। सभी यात्रियों को मामूली चोंटे आई थी। इसके बाद उन्हें दूसरी बस से विंध्यनगर के लिए रवाना किया गया। इस संबंध में सोनभद्र डिपो के एआरएम विश्राम कुमार का कहना है कि सोमवार की रात में विंध्यनगर डिपो की एक बस हिंदुआरी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यात्रियों को मामूली चोंटे आई थी। प्राथमिक उपचार कराते हुए रात में ही यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

## 500 में विश्वनाथ धाम से माकंर्डेय महादेव तक कर सकेंगे यात्रा, शुरू होगी काशी दर्शन बस सेवा

काशी दर्शन बस सेवा शुरू होगी। बस सेवा शुरू होने से दर्शनार्थियों को काफी सुविधा मिलेगी। इसके लिए सिटी सर्विसेज और पर्यटन विभाग ने जगह तय कर दी है। पर्यटकों को विश्वनाथ मंदिर, कालभैरव, नमोघाट, सारनाथ, स्वर्वेद मंदिर से माकंर्डेय महादेव के दर्शन होंगे। महाशिवरात्रि पर काशी दर्शन बस सेवा शुरू होगी। 500 रुपये में यात्री काशी दर्शन कर सकेंगे। पिछले दिनों बोर्ड की हुई बैठक के बाद इस सेवा को शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। पर्यटन विभाग और वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से काशी दर्शन के तहत पांच स्थानों का चयन किया गया है। जल्द ही कस्टमर केयर नंबर भी जारी किया जाएगा।

सिटी बस सेवा अधिकारियों के की योजना है। सिटी सर्विसेज के

अनुसार यात्रियों को प्रति टिकट 500 एमडी गौरव वर्मा ने बताया कि कैंट



रुपये में काशी दर्शन कराया जाएगा। कैंट बस स्टेशन पर टिकट की बुकिंग होगी। यात्रियों के भ्रमण के दौरान ई-बसों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। काशी दर्शन सेवा में डीजल बसें नहीं संचालित होंगी। महाशिवरात्रि पर बस सेवा शुरू करने रोडवेज बस स्टेशन से पहली बस सेवा सुबह नौ बजे की होगी, जो कालभैरव, नमो घाट, सारनाथ, मोचन मंदिर, दुगार्कुंड, मानस मंदिर

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर, स्वर्वेद मंदिर, माकंर्डेय महादेव, संकट के बाद शाम तक पुनः बस स्टेशन

को होगा लाभ इस सेवा का लाभ बाहरी पर्यटकों को काफी होगा। बस में सवार होने के बाद उन्हें फिर किसी से रूट आदि के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सेवा के तहत परिचालक खुद पर्यटकों को पूरी जानकारी देते जाएंगे। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, कोलकाता आदि शहरों से आने वाले पर्यटकों को

पहुंचेगी।ई-बसों में आरामदायक होगा

सफर सिटी सर्विसेज अधिकारियों

के अनुसार ई-बसों में यात्रियों को

काफी सहूलियत होगी। वहीं, यात्री

24 घंटे सर्विलांस कैमरे की कैद में

होंगे। उनके लगेज और अन्य सामान

चोरी होने की आशंका भी नहीं के

बराबर होगी। डिपो में बैठे कर्मचारी

काशी दर्शन बस सेवा की ऑनलाइन

निगरानी भी करते रहेंगे। पर्यटकों

## वायुसेना मुख्यालय की अनुमति के बाद ही रात में शुरू होगा विमानों का आवागमन



आवाजाही के लिए एयरपोर्ट मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में एयपोर्ट अथॉरिटी की हुई बैठक में सांसद केशरी देवी ने कहा कि वह जल्द ही रक्षामंत्री से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगी। महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट में रात के समय विमानों की आवाजाही अब वायुसेना मुख्यालय की अनुमति के बाद ही हो सकेगी। इसके लिए प्रयागराज विमानपत्तन

सलाहकार समिति की ओर से वायुसेना मुख्यालय को पत्र भी भेजा जाएगा। ताकि महाकुंभ के पूर्व यहां रात के समय विमानों की आवाजाही हो सके। इतना ही नहीं खराब मौसम में भी विमानों की आवाजाही हो इसके लिए यहां कैट थ्री लाइट लगाने का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को प्रयागराज विमानपत्तन सलाहकार समिति की सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में लिया गया। सांसद केशरी देवी पटेल की अध्यक्षता में हुई

बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। सदस्य शिवशंकर सिंह, धनंजय सिंह के रात के समय विमानों के आवागमन की मांग करने के सवाल पर बैठक में मौजूद वायुसेना अफसर ने कहा कि यह निर्णय वायुसेना मुख्यालय से होना है। इसपर सांसद ने कहा कि वह सलाहकार समिति की ओर से इस संबंध में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखेंगी। कैट थ्री लाइट लगाने का भी भेजा जाएगा प्रस्ताव प्रयास किया जाएगा कि यहां रात के समय जल्द से जल्द विमानों का आवागमन शुरू हो। सांसद ने यह भी कहा कि कम दृश्यता पर विमानों की आवाजाही के लिए कैट थ्री लाइट का भी प्रस्ताव यहां से भेजा जाएगा। हालांकि यह मामला लोकसभा में उठाया जा चुका है। सदस्य विक्रमजीत भदौरिया, आशीष गुप्ता ने प्रयागराज से कोलकाता, इंदौर विमान सेवा शुरू करने

की बात कही। इसी तरह सदस्य रमेश चंद्र अग्रवाल, चंद्रशेखर ओझा ने नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग की। इसके पूर्व एयरपोर्ट निदेशक राजीव रत्न पांडेय ने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्य के बारे में विस्तार से समझाया। कहा कि दिसंबर 24 तक एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य पुरा हो जाएगा। उन्होंने यहां होने वाले काम भी गिनाए। इस दौरान पिछले वर्ष 17 नवंबर 23 को हुई बैठक की कार्यवृत्ति भी उन्होंने पेश की। कहा कि एयरपोर्ट पर एंबुलेंस की व्यवस्था अब हो गई है। इसके अलावा रोडवेज से कहा गया है कि वह नियमित रूप से सिविल लाइंस, रेलवे स्टेशन होते हुए सीधी बस सेवा शुरू करे। वहीं पुलिस से भी कहा गया है कि प्रीपेड टैक्सीबूथ की व्यवस्था

#### एयरपोर्ट पर की जाए। 60 घंटे बाद गिरफ्त में आया तेंदुआ, चार घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, तीन दिन भय के साए में रहे लोग

आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के जल निकासी पाइप में घुसे तेंदुए को तीन दिन बाद निकाला गया। पाइप लाइन में ड्रम डाल कर प्रेशर से धकेल कर पिंजरे में कैद किया गया। काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाला गया। आजमगढ़ जिले के तहरबपुर के नैपुरा गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जल निकासी पाइप में तीन दिनों छिपकर बैठे तेंदुए को आखिरकार गिरफ्त में ले ही लिया गया। वन विभाग व पुलिस कर्मियों ने चार घंटे की कड़ी



हासिल किया। मंगलवार सुबह से ही मेहनत के बाद पाइपलाइन में ड्रम को डाल कर प्रेशर से तेंद्रआ को धकेल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था लेकिन कर पिंजरे में कैद करने में सफलता मुख्य अभियान शाम तीन बजे शुरू

में रहे। यह है पूरा मामला जिले में तेंदुए का आतंक विगत एक पखवारे से देखने को मिल रहा था। अहरौला में भी इसकी घेराबंदी हुई थी लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चलते जाल काटकर तेंदुआ फरार हो गया था। इसके बाद रविवार को यूपीडा की भ्रमण करने वाली टीम ने तहबरपुर के नैपुरा के पास तेंद्रुए को देखा और फोटो खींच लिया।

हुआ जो सात बजे तेंदुआ के पिजड़े

में कैद होने के साथ पूर्ण हुआ। तेंदुए

के पकड़े जाने तक लोग भय के साए

## क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए0एच0प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी,डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा

मो. 9027776991 RNI NO- UPBIL/2021/83001

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त विवाद

क्यूँ न लिखुँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे।

#### संक्षिप्त खबरें

#### प्राथमिक विद्यालय कलापुर में चोरी

रिठौरा। विकास खण्ड बिथरीचौनपुर के प्राथमिक विद्यालय कलापुर में बीती रात्रि अज्ञात चोरों ने पूरे स्कूल

के सभी कमरों के ताले काटकर कमरे में लगा एलसीडी एवं अन्य सामान चुरा ले गए। प्रधानाध्यापक राजेश कुमार शर्मा ने बताया उनके विद्यालय में डेढ़ वर्ष में यह चौथी बार

चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। मामले की सूचना 112 पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की मगर कोई सुराग नहीं लग सका है। मामले की लिखित शिक़ायत पुलिस से की गई है। ग्राम प्रधान गायत्री देवी ने लगातार हो रहीं चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई है।

#### शामली से मथुरा बरसाना वृंदावन बस यात्रा 26 अप्रैल को जाएगी

क्यूँ न लिखुं सच

शामली श्री लक्ष्मी नारायण सेवा समिति शामली के द्वारा मथुरा वंदावन बरसाना बस यात्रा 26 अप्रैल को हनुमान टीला हनुमान धाम पालिका मार्केट के आगे से जाएगी जिसमें बाबा बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए भक्तों को लेकर शामली से रवाना होगी इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष राकेश संगल

#### मेडीकल कॉलेज एटा के ब्लड बैंक में पंजाब नेशनल बैंक के सानिध्य में रक्तदान का आयोजन किया

एटा.मेडीकल कॉलेज एटा के ब्लड बैंक में पंजाब नेशनल बैंक के सानिध्य में रक्त दान का आयोजन किया गया । पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य प्रबंधक श्रीमान महेश वर्मा जी ने बताया कि यह आयोजन हमने अपने

मंडल प्रमुख आगरा श्री अहलूवालिया जी के दिशा निर्देशों पर किया है और करना चाहिए जिससे



जा सके स रक्त दान शिविर का उद्घाटन ब्डै एस.चंद्रा जी एवम् महेश वर्मा जी ने सयुक्त रूप से किया । कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया , जिसमे देवेंद्र दिक्षित गप्पू, आकाश चौरसिया विकास कुमार, शिव राम कृष्ण अंशुल शर्मा, संदीप कुमार,सतेंद्र यादव,श्यामवीर यादव, सौरव सारस्वत,उत्कर्ष गुप्ता,दारा सिंह ,आदित्य कुमार ,आलोक जैन, ने हिस्सा लिया।

#### नहर में छलांग लगाने वाले युवक को गोताखारों की मदद से सकुशल बचाया

एटा ! आज मगंलवार को थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत हजारा नहर पूल

से एक युवक नहर में कूद गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर पलड टीम, लोगों के सहयोग से रूपेश पुत्र हीरालाल निवासी कल्याणपुर थाना



कोतवाली देहात एटा उम्र करीब 17 वर्ष को सकुशल निकाल लिया गया है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त युवक गृह क्लेश के चलते नहर में कूद गया था।

#### भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम दिया गया ज्ञापन

तहसील संवाददाता अरविंद कुमार यादव भारतीय किसान यूनियन श्रावस्ती ने जनपद के जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधिकारी के



माध्यम से दिया हक पत्र जिसके 15 बिंदु थे कॉविड के समय में वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं दिव्यांग व्यक्तियों खिलाडियों को रेलवे द्वारा पूर्व में दी गई रियायत फिर से बहाल की जाए बिजली संशोधन विधेयक वापस ले कोई प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं है सभी किसान परिवार को कर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए व्यापक ऋण माफी योजना की घोषणा करें सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें काम के अधिकार को मौलिक बनाया जाए स्वीकृत पदों को भरे और बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करें किसानों को बीज उर्वरक और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाएं किसानों के उपज के लिए यम एस पी सी2+50 को कानूनी गारंटी दे और खरीद की गारंटी दे ताकि किसानों की आत्महत्याओं पर हर कीमत पर रोक लगाई जाए सिंघु बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों के परिवारों का पुनर्वास करें सभी लंबित मामलों को वापस ले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनिंग पर मुकदमा चलाया जाए ताकि किसान परिवारों को न्याय मिल सके ट्रैक्टर मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट भिन्गा पहुंच कर एडीएम भिनगा को हक पत्र दिया जिला अध्यक्ष श्रावस्ती अजय कुमार चौधरी सोम शर्मा प्रमोद तिवारी पवन कुमार वर्मा हरिद्वार प्रसाद यादव सहित जनपद के कोने से आए हुए पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

## अपना प्रदेश त्योंथर रेही पंचायत में लगी आरटीआई का नहीं दिया गया जवाब क्या

## सचिव के पास नहीं है रिकॉर्ड पूछती है त्योंथर की जनता'

क्यूं ना लिखूं सच आलोक मिश्रा

त्योंथर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत रेही में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए आरटीआई आवेदक का नही दिया गया जवाब इससे यह साबित हो रहा है की ग्राम पंचायत रेही की जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए एवं कलेक्टर रीवा,एवं जिला पंचायत सीईओ, एवं त्योंथर सीईओ राहुल पाण्डेय जी को भी इस मैटर को गंभीरता से लेना चाहिए क्या ग्राम पंचायत रेही में पदस्थ

नहीं है क्या 10 महीने के अंदर निकले हैं एवं जो कार्य हुए हैं गया है या फिर अधिकारियों



उसका रिकॉर्ड कहां गायब हो के मिली भगत से रेही पंचायत

का कार्य चल रहा है वहीं रेही पंचायत में लगी आरटीआई को लेकर त्योंथर मे पदस्थ कमलजीत वर्मा के द्वारा फोन करके आरटीआई लगाये गए व्यक्ति को रेही पंचायत के सचिव से मिलने के लिए बोला गया है जबकी आवेदन कर्ता सीईओ त्योंथर को आरटीआई आवेदन दिए हैं तो उनको आरटीआई रिपोर्ट भी वहीं से मिलेगी परन्तु त्योंथर जनपद में पदस्थ कमलजीत वर्मा के द्वारा आवेदन कर्ता के पास फोन करके रेही पंचायत के सचिव से मिलने के लिए क्यों

कहा जाता है क्या रेही पंचायत

के सचिव के द्वारा त्योंथर जनपद में पदस्थ कमलजीत वर्मा को कमीशन मिलता है कमलजीत वर्मा की भी लापरवाही आए दिन सामने आ रही है एवं रेही पंचायत के सचिव जहां जहां पर पदस्थ थे अब तक वहां वहां हुआ है भ्रष्टाचार यह है जांच की विषय फिर भी सक्षम अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है जांच क्या अधिकारियों के भी जेब में भ्रष्टाचारियों के पैसों से भरता है अधिकारियों के परिवार का पेट पूछती है रेही पंचायत की जनता आखिर कब तक ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा।

## शामली मैं युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत सड़क किनारे पड़ा मिला शव

क्यूँ न लिखूं सच

शामली कैराना मै अलीपुर रोड पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई उसका शव सडक किनारे पड़ा मिला पास ही



मतक की बाइक खड़ी मिली थी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया नगर के मोहल्ला बेगमपुरा निवासी शाहरुख 27 मंगलवार की देर रात अपनी बाइक पर अपनी ससुराल जा रहा था इसी दौरान नगर के कुछ ही दूरी पर अलीपूर रोड पर उसका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई शव सड़क किनारे पड़ा मिला राहगीरों ही सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया यही सूचना पागल पुलिस भी अस्पताल में पहुंची और परिजनों से जानकारी हासिल की अस्पताल में मोहल्ले के लोगों की भी भीड़ जमा हो गई बताया जा रहा है कि मृतक शामली में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था उसके दो मासूम बच्चे बताए गए हैं मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र कसाना का कहना है कि मरता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का पता चलेगा माता के पिता मेहरबान की भी गलत 29 जनवरी को सड़क हादसे में मौत हो गई थी

## भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद में शामली जनपद के कांग्रेसी शामिल होंगे: दीपक सैनी

क्यूँ न लिख्ं सच

के साथ अपने व टीम के नाम आर्थिक, राजनीतिक, द्रष्टि से शामली जिला कांग्रेस नोट कराएं नाम मुरादाबाद गरीबों पिछड़ों दलितों कमेटी ने कांग्रेस कैंप पहुंचे अपनी टीम के साथ आदिवासियों को मजबूत करना



पर बैठक आयोजित की गई माननीय श्री अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री के जनपद के सभी कांग्रेसियों ने इस यात्रा का उद्देश्य यह है

गांधी जी माननीया प्रियंका गांधी जी इस यात्रा में शामिल होंगे ओर जिस रास्ते को राहुल निर्देश पर । दीपक सैनी जी की यात्रा निकल रही है कांग्रेस जिलाध्यक्ष शामली ने उसी रास्ते जनसैलाब उमडता बताया कि मुरादाबाद में भारत जा रहा है हर व्यक्ति तारीफ जोड़ो न्याय यात्रा २४ फरवरी कर रहा है जगह-जगह को पहुंच रही हैं शामली स्वागत कर रही है जनता।

किसानों, व्यापारी, मजदूर को सरकार द्वारा रौंदा जा रहा है। दिल्ली में किसानों को नहीं आने दिया जा रहा है जबिक दिल्ली में किसान अन्नदाता गेहूं ,दुध, चांवल,दाल, सब्जी,फल, पहुंचने का काम करता है इसके बाद भी किसान को दिल्ली में घुसने नहीं दिया ज रहा है। यह हाल छात्र छात्रों का हो रहा है पेपर का फार्म जमा करने की फीस पुरी जमा करती है सरकार इस फीस की तादाद अरबों रुपए इकट्टे होती है सरकार के खजाने में। ओर पेपर दो दिन पहले लीक हो जाता है और छात्र छात्राओं की पेपर की जमा राशि को हजम कर ली जाती है वो फीस वापस नहीं की जाती। दीपक सैनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष, डाक्टर रामलाल कश्यप जिला महासचिव, शमशीर खान जिला महासचिव, संदीप शर्मा जिला सचिव प्रवक्ता, लोकेश कटारिया जिलाध्यक्ष अनुसूचित,जबरसिंह पाल पीपीसी मेंबर जिला सचिव, सलमान राणा युवा कोर्डिनेटर, गयुर कुड़ाना ब्लाक अध्यक्ष महाबीर सैनी, प्रमोद कश्यप,अजय कुमार, राधेश्याम सैनी, सुरेश सैनी, रामशरण नामदेव, गौरव जैन, आदि

## करुणा को ससुराल द्वारा मानसिक व शारीरिक दी गई यातनाएं की जांच कर मामला दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की अरविंद झंझोट

राकेश गुप्ता

क्यूँ न लिखूं सच

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना कोतवाली जनपद शामली

से भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष दीपक सैनी अरविंद झंझोट लोकेश कटारिया जिलाअध्यक्ष अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कांग्रेस शमसीर खान प्रमोद कश्यप सलमान राणा नौशाद खान गयूर अली जबरपाल सिंह किशोर झंझोट विशाल कुमार अरुण झंझोट मुकेश कुमार अंकित चंचल सुमित कुमार किशोर वाल्मीकिनंदू प्रसाद वाल्मीकि किरण देवी राजेश देवी मुनेश देवी सुनीता देवी आदि ने उक्त मामले में प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए थाना प्रभारी महोदय से मांग की और अरविंद झंझोट ने तहरीर देते हुए बताया कि मेरी पुत्री करुणा पुत्री अरविंद झंझोट निवासी मोहल्ला पांसरियांन वाल्मिकी कॉलोनी जनपद शामली का मोंटी पुत्र अमित कुमार मोहल्ला रेती गेट वाल्मीकि बस्ती कस्बा थाना भवन जनपद शामली के साथ 5 मई 2023 हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हुआ था जिसमें दो प्रकार के वैष्णव भोजन एवं नॉनवेज भोजन बारात के लिए किया था और पांच चीज लड़की को और तीन चीज सास को दो चीज जेठानी को दो चीज लड़के को और घरेलू सभी सामान

अलमारी फ्रिज एलसीडी 32

दो छोटे बड़े होके बाइक आदि सामान दिया था जिसकी सूची पत्र के साथ सलगन है श्रीमान जी मेरी पुत्री को मोंटी आए दिन मारपीट करता है और

मेरी पुत्री के साथ मारपीट कर

की और मेरी पुत्री करुणा को

मोंटी और मोंटी के पिताजी

करते थे ये जिसमें मेरी पुत्री

कांपा करते थे ऐसा इंजेक्शन

लगाया करते थे ये लोग विवाह

के बाद इन्होंने मेरी पुत्री को

संबंध रहे हैं जिसमें मेरी पुत्री

ने मोंटी के इस बात को बताने

पर मेरी पुत्री ने करुणा ने

इसका विरोध किया और मोंटी

इंची तूफान फैन संदूक कुर्सी शराब भी पिया करता था शराब दिए इतना सुनते ही मेरी पुत्री न पीने के लिए मेरे पुत्री ने के साथ मारपीट की और कई बार उसे मना किया और पिस्तौल दिखा करके उसे लडिकयों से ऐसे नाजायज गोली मारने की धमकी दी कि संबंध रखने से मना किया इतना अगर तूने अपने घर बताया तो कहने पर उसके साथ मारपीट तुझे भी जान से मार देंगे और

तुम्हारी लड़की पागल हो गई मेरी पुत्री कक्षा 12वीं उत्तरीन है जिसके सभी कागजात शादी के उपरांत उसके साथ हमने शिक्षा के कागज कंप्यूटर सिलाई कढाई के डिप्लोमा के सभी कागज



उसके साथ हमने भेज दिए थे

होशियार है और उसने अपने ससुराल में घरेलू सभी कार्य किया मेरी पुत्री करुणा को मानसिक और शारीरिक यातनाएं देकर बहुत बुरी दशा में हमारे घर पर छोड़कर चले गए हमने सबसे पहले अपनी पुत्री का डॉक्टरी उपचार मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर श्री अरुण राय जी के यहां चिकित्सा उपचार कराया उसकी हालत में सुधार आने पर उसने हमें हमारे परिवार को सारी बात अपने ऊपर बीती बताई श्रीमान जी से अनुरोध है मोंटी पुत्र अमित व मोटी के पिता अमित कुमार मोंटी की मां अनीता के द्वारा मेरी पुत्री करुणा के साथ की गई मारपीट वह मानसिक व शारीरिक की यातनाए जो दी गई है इनके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी उचित कार्रवाई करने की

## चालक को चेक करने पर अल्कोहल की मात्रा पाई गई

एटा,सराहनीय कार्य जनपद एटा एसएसपी एटा श्री राजेश कुमार सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्री धनंजय सिंह कुशवाहा के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वाले तथा मोडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले बुलेट आदि को सीज किया गया। इसी क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 02 मोडीफाई बुलेट को तथा यातायात पुलिस द्वारा एंबुलेंस चालक को चेक करने पर अल्कोहल

की मात्रा पाई गई तथा मौके पर कोई कागजात नहीं दिखा सका जिसके चलते एंबुलेंस को सीज किया गया एवं आम जनता को निर्घारित साइलेंसर एवं मानक के अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने के लिए जागरूक किया गया है।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए 9027776991 knlslive@gmail.com

मेरी पुत्री के साथ किसी न की और मेरी पुत्री से कहा कि तेरे अकेले भाई को मैं तेरे और घरेलू काम करने में भी बड़ी किसी बात पर मोंटी व उसका पिता को गोली से जान से मुझे बाइक नहीं दी इस बात पिता अमित मोंटी की मां अनीता पर मैंने मोंटी को अपनी मार देंगे मेरी लड़की करुणा मारपीट करती है और मोंटी ने टीवीएस स्पोर्ट गाड़ी बाइक दे उन लोगों के धमकाने में

दी और वह बेरोजगार है मेरी पुत्री का गला दबाकर इसलिए उसको व्यवसाय करने जान से मारने की भी कोशिश के लिए डेढ़ लाख रुपए मैं ब्याज पर उठाकर दिए उसके बाद भी मेरी पुत्री करुणा को नशे का इंजेक्शन लगवाया मोंटी ने कहा कि मुझे नई बुलेट नहीं दी और अपनी को नींद आ जाया करती थी पुरानी गाड़ी मुझे दे दी मुझे और मेरी पुत्री के हाथ पैर भी पुत्री करुणा ने बताया की और मुझे मेरे परिवार को गाली गलौज मोंटी व उसके पिता अमित ने करुणा के सामने मानसिक शारीरिक यातनाएं दी गाली गलौज करने लगे तो मेरी पुत्री ने मुझे बताया की करुणा ने मोंटी को उसके पिता को कहा कि मेरे पिता ने मोंटी के कई लड़िकयों से साथ दहेज का आपको इतना सामान दिया है और तुम्हारा काम

व्यवसाय जुड़वाने के लिए मेरे

पिता ने डेढ़ लाख रुपए आपको

भयभीत रही और उसने हमें एक बार भी नहीं बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है मेरी पुत्री करुणा को छोटी–छोटी बातों पर किसी न किसी बात पर मारपीट की है और दिनांक 15 फरवरी 2024 को 6 बजे को गंभीर हालत में मेरे घर पर मोंटी पति अमित ससुर अनीता सास मोहल्ला पंसारियांन वाल्मिकी कॉलोनी मैं गाड़ी से छोड़कर चले गए मेरी पुत्री की नाक , कान में हमारे द्वारा दी गई सोने चांदी की चीज दी थी वह सब निकाल कर सभी चीज गिरवी रख दी है मेरी पुत्री करुणा को मारपीट

करके उसे 15 फरवरी 2024

शाम 6रू00 बजे छोड़ गए कि

## 40 पौवा शराब सहित दौ युवकों को पकड़ा



क्यों ना लिखूं सच अली गढ अकराबाद। कोतवाली पुलिस के के दारोगा दुलीचंद यादव ने अकराबाद विजयगढ़ रोड रिथत दिनावली मंडनपुर

चौराहे से अलग अलग दो युवकों को 20-20 देशी अबैध शराब के पौवा के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों मोहनलाल व धर्मवीर उर्फ धम्मा निवासी दिनावली को आबकारी शराब अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कोर्ट भेजा है।

#### कार व टैक्टर की भिंडत में दो लोग घायल

क्यों ना लिखूं सच

अलीगढ अकराबादः कोतवाली क्षेत्र में पनैठी गंगीरी रोड पर कस्बा कौडियागंज गेट के निकट बुधवार की शाम स्कॉर्पियो कार व ट्रैक्टर की जोरदार भिडंत में कार सवार दो लोग गंभीर

रूप से घायल हो गए हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को 🥻 उपचार के लिए एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा है। थाना विजयगढ़ के गांव परौरी निवासी विकास पुत्र नेम सिंह अपने साथी



सोमप्रकाश पुत्र बाबू सिंह निवासी कठैरा आलमपुर के साथ स्कॉर्पियो कार द्वारा कासगंज की ओर से आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार कौडियागंज क्षेत्र में पहुंची तभी सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से जोरदार भिडंत हो गई। हादसा होते ही आसपास के तमाम लोग मौके पर जुट गए।ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस चौकी कौडियागंज से हेडकांस्टेबल नवल सिंह व मोनू कश्यप मौके पर पहुंच गए और दोनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।

#### महतारी वंदन योजना: हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहली बार मार्च माह में आएगी राशि

सूरजपुर / 21 फरवरी 2024 / महतारी वंदन योजना का प्रथम चरण 20 फरवरी को आवेदन करने का अंतिम तिथि था। आवेदनों के सत्यापन के उपरांत जल्द ही अंतिम सूची जारी की जाएगी।



अंतिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति भी ली जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की

जाएगी। पहले चरण में जितने भी आवेदन आए है, उनके सत्यापन के बाद प्रथम बार डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में मार्च माह की राशि, मार्च माह में ही वितरित की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी पूरी करने जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में प्रति माह एक हजार रूपए, इस प्रकार साल में 12 हजार रूपए अंतरित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में प्राप्त अंतिम जानकारी के अनुसार अब तक 02 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है। महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कार्यवाही भी किये जा रहे है

#### छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के तहत मतदान के लिए किया गया जागरूक

सूरजपुर / 21 फरवरी 2024 / कलेक्टर श्री रोहित व्यास और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदनी साहू के दिशा निर्देश



में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरवरगंज के प्रांगण से माध्यामिक शाला चौक तक विशाल साइकिल रैली एवं शपथ का आयोजन विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के तहत मतदान के लिए सभी लोगों को जागरूक करते हुए एक विशाल रैली निकालकर मतदाता जागरूकता अभियान को लोकसभा चुनाव के तहत शत प्रतिशत मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया, इस कार्यक्रम का संचालन श्रीमती लता बेक स्वीप नोडल अधिकारी, सहायक नोडल श्री जयराम प्रसाद (बीपीओ), यशोदा सोनी, सुदर्शन दास, अखिलेश कुमार यादव, अजय देवांगन एव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरवरगंज के प्राचार्य श्री के.पी.कुजूर जन शिक्षक कीर्ति कौशल दुबे स्कूल के सभी शिक्षक गण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया।

#### समर्सिबल पम्प चोरी करने एवं खरीदने वाले 5 आरोपी

#### पकड़ाए, थाना जयनगर पुलिस की कार्यवाही

सूरजपुर। उप पुलिस महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) के कड़े निर्देश के बाद से ही जिले की पूलिस क्षेत्र में लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी बीच दिनांक 19.02.24 को थाना जयनगर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम गोपालपुर में कुछ लोग चोरी का समर्सिबल पम्प बिक्री करने हेतु लेकर जाने वाले है। सूचना पर फौरन कार्यवाही करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर अनिल यादव पिता जगसाय यादव उम्र 34 वर्ष व रूप राजवाड़े पिता सीताराम राजवाड़े उम्र 32 वर्ष व सैनाथ सिंह पिता हरिनाथ सिंह उम्र 35 वर्ष तीनों निवासी ग्राम गोपालपुर को पकड़ा। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि गोपालपुर स्थित फार्म हाउस, स्वास्थ्य केन्द्र परिसर व फ्लाईऐश ईट भट्टा से माह अक्टूबर—नवम्बर 2023 के दरम्यान ३ नग समर्सिबल पम्प मिलकर चोरी करना जिसमें से १ पम्प को बिक्री कर देना जिसके आधार पर समर्सिबल पम्प क्रेता नर्मदा विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष व बचन राम बरगाह उम्र 65 वर्ष दोनों निवासी कमलपुर के कब्जे से 1 नग समर्सिबल पम्प बरामद किया गया।

## मित्रता निभाना तो श्री कृष्ण और सुदामा से सीखें

अपना प्रदेश

क्यों ना लिखूं सच

अलीगढ अकराबादः गांव कलियानपुर में झवर बाले बाबा के पास चल रही सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कथा व्यास आचार्य प्रेम शंकर भारद्वाज जिरौली हीरा सिंह वालों ने भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रसंग सुनाया आचार्य जी ने कहा की मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा से समझ सकते हैं। सुदामा पत्नी के बार-बार आग्रह पर मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे सुदामा ने द्वारकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर कदम बढ़ाने लगे तभी द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझ रोका तब उन्होंने कहा कि सुनकर द्वारपाल अंदर पहुंचे और सीने से लगाया सुदामा ने भी सुरेंद्र पाल सिंह, राजकुमार सिंह,



आया है। जो अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृ ष्ण सिंहासन छोड़ नंगे पैर द्वारा

सुबह 11:00 बजे से विशाल भंडारे

से लगा लिया।आयोजक पिंटू जिला ब्यूरो चीफ, पत्रकार सुधाकर

ठाकुर व हरेंद्र सिंह ने बताया कि उपाध्याय, संजू, अरुण पहलवान, गुरुवार को कथा स्थल परिसर में सोनू शर्मा बैंक मैनेजर, सदीप ठाकुर, अर्जुन शर्मा, कप्तान सिंह वह श्री कृष्ण के मित्र हैं। यह की ओर दौड़ पड़े और मित्र को का आयोजन होगा इस दौरान आदि लोग मौजूद रहे।

ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त ऋण को 18 माह में

## पी0एम0 विश्वकर्मा योजनान्तर्गत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का राजकीय आई0टी0आई0 सभागार में हुआ भव्य आयोजन

दिनांक 20-02-2024 को पी०एम० विश्वकर्मा

प्रेमकान्त ने बताया है कि अवगत कराया गया कि प्रधानमंन्त्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की अति योजनान्तर्गत एक दिवसीय महत्वांकाक्षी योजना है. जनपद

एटा, उपायुक्त उद्योग गया। उपायुक्त उद्योग द्वारा व खिलौने बनाने वाले, मोची, के 05 प्रतिशत सामान्य ब्याज लुहार, धोबी, राजमिस्त्री, ताला बनाने वाले, हथौडा व टूलकिट बनाने वाले, दजी मछली का जाल बनाने वाले मालाकार

जागरूकता कार्यक्रम का एटा को 1200 का लक्ष्य प्राप्त तथा नाई का कार्य करने वाले

हुआ है, जिसके सापेक्ष में कुल आयोजन जनपद एटा के राजकीय आई०टी०आई०, 2745 आवेदन पत्र पोर्टल पर सभागार, एटा में सूक्ष्म, लघु प्राप्त हुये थे, जिनमें से 742 एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, का प्रथम स्थलीय सत्यापन एम०एस०एम०ई०, विकास तथा 685 का द्वितीय स्थलीय संस्थान (भारत सरकार) आगरा सत्यापन कराया जा चुका है। की संयोजक सतविंदर कौर, योजनान्तर्गत जनपद के वरिष्ठ सॉख्यिकीय अधिकारी शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों के आगरा द्वारा कार्यक्रम का परम्परागत कारीगरों को आयोजन कराया गया। विभिन्न 18 ट्रेडों कुम्हार, बढई, कार्यक्रम में जनपद के ग्राम मुर्तिकार, अरत्र निर्माण, डलिया प्रधानों, जन सुविधा केन्द्र चटाई व झाडू बनाने वाले, संचालकों द्वारा प्रतिभाग किया सुनार, नाव बनाने वाले, गुडिया

कारीगरों का चयन करके उनकी आजीविका को सुदृद्ध करने व उनमें कौशलबुद्धि हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जायेगा। प्रशिक्षिणोपरान्त कारीगरों को सम्बन्धित ट्रेड की टूलिकट खरीदने हेतु रू0 15,000 का ई— वाउचर प्रदान किया जायेगा। टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ करने के इच्छुक लाभार्थियों को, उनके व्यवसाय प्रयोजन हेतु रू० 1. 00 लाख तक का बिना गारन्टी

चकता करने पर, लाभार्थी को कौशल उन्नयन हेतू 10 दिन का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा एवं पून लाभार्थी के इच्छुक होने पर, दूसरी बार रू0 2.00 लाख तक का ऋण बिना गारन्टी के 05 प्रतिशत सामान्य ब्याज दर से दिलाया जायेगा। उक्त योजना के अन्तर्गत पात्रता की शर्तें हैं— अभ्यर्थी उल्लिखति 18 परम्परागत ट्रेड से सम्बन्धित होना अनिवार्य है। उसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, एक परिवार वे एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान कराया जायेगा। यदि अभ्यथी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, तो वह इस योजना में पात्र नहीं होगा। इस योजना का पंजीकरण एवं आन लाइन आवेदन पत्र वेबसाइट ू. चउअपी्रांतउं.हवअ.पद पर जनसेवा केन्द्र के माध्यम से कराया जा सकता है।

#### यातायात नियमों की अनदेखी से खतरे में जिंदगी जय सिंह राज्

क्यूं न लिखूं सच स अरुण मिश्रा

सींधी स जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी जीवन पर भारी पड़ रही है। यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, लेकिन इसका कुछ खास



असर नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जय सिंह राजू ने कहा कि बिना हेलमेट बाइक चलाना लोगों की आदत में शामिल है, वहीं कार में सीट बेल्ट के नाम पर खानापूर्ति ही हो रही है। इससे यातायात सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियानों पर भी प्रश्न चिह्न लग रहे हैं। यातायात नियमों

को गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। शहर के सम्राट चौक, , हॉस्पिटल चौंक कलेक्ट्रेट रोड, आदि मार्गी पर सुबह से ही वाहनों की रेलमपेल के बीच नियमों का मखील उड़ाकर फर्राटा भरते वाहन व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते दिखते हैं। दोपहर को स्कूल-कालेजों की छुट्टी होने के बाद नियमों की अनदेखी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। स्कूल-कालेजों के अधिकतर युवा हेलमेट ही नहीं लगाते। उन्हें न कोई टोकने वाला और न कार्रवाई करने वाला। ट्रिपल राइडिंग पर कार्रवाई का डर नहीं शाम को कोचिंग जाने वाले छात्र कुछ बाइकों पर तीन लोग सवार दिखते हैं। कई तो ऐसे भी दिखे जो हाथों में हेलमेट पकडकर चलते हैं, लेकिन उसे पहनने से बचते हैं। नियमों की अनदेखी पर जिम्मेदारों ने भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। सीधी की यातायात प्रशासन क्यों नही दिखती जागरूक? नियमों का उल्लंघन करने में ज्यादातर तो स्कूल-कालेजों के नाबालिग छात्र हैं, जो बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। कई बार ई–रिक्शा में दस–दस छात्र–छात्राए बैठकर घर जाते हैं। इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है स्कूल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

#### शादी के बंधन में बंधे आखिर कार पवन सक्सेना

लवकुश ठाकुर क्यों ना लिखूं सच अलीगढ़ अकराबाद पवन सक्सेना आखिर कार शादी के बंधन में बंध ही गये। घर पर इसको लेकर काफी दिनों से तैयारियां चल रहीं थीं। इसके चलते परिवार में जमकर शहनाईयां गूंजी। साथी मित्रों ने उन्हें ग्रहस्थ 🕟 जीवन में प्रवेश करने पर बधाई दी है। कार्यक्र अलीगढ़ विष्णु सेवा सदन एटा चुंगी धूमधाम के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में वर व वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बधं गये पव सक्सेना फिजियो



#### सीधी—PWD एवं प्रधानमंत्री सडक में विजली ठेकेदार ने फैला दिया11ाइ का करंट -कभी भी घट सकती है बड़ी घटना ,जिम्मेदार बेखबर

सीधी- जिले के कुसमी डीसी अंतर्गत नवीन विद्युतीकरण के लिए विद्युत विभाग के द्वारा सर्वे कार्य करा कर ठेकेदार को कार्य करने का जिम्मा दिया गया लेकिन विद्युत विभाग के किए गए सर्वे को छोड़कर ठेकेदार और पेटी कान्टेक्टर एवं दबंग लोगो के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्य करके 11ाइ सप्लाई दौड़कर पूरे प्रधानमंत्री सड़क एवं चूक सड़क में 11ाइ जैसे खतरनाक करंट फैला दिया गया है जिसमे कभी मामल पर इन विभागा विभागीय जिम्मेदार आला

अधिकारी चुप्पी साधे अपने कार्यालय पर बैठे हुए हैं। सिचाई विभाग की नहर मे लगा दिया पोल बताते चलें कि बिजली विभाग के द्वारा सर्वे के आधार को छोडते हुए ठेकेदार एवं पेटी ठेकेदार के द्वारा मनमानी पूर्ण कार्य करते हुए सिंचाई विभाग कोडार बांध की नहर ग्राम कोडार में नहर में ही खंभे लगा दिए गए जिससे किसानों के



भी बड़ी घटना घट सकती है। साथ–साथ जब भी विभाग नहर को दिक्कत का सामना करना जाये।अन्यथा कार्यवाही

खंभा को लगाने एवं हटाने में ही बर्बाद होती रहेगी साथ ही जैसे ही सिचाई विभाग के अधिकारियों को जानकारी हुई वह संबंधित प्रथम पेटी ठेकेदार के खिलाफ पत्र जारी कर खंबा हटाने की को लेकर पत्र जारी कर दिया है जिसमे उल्लेख है कि विभाग से विना सहमति के किसी तरह के कार्य नहर में न किये

आर शासन का राशि

हागा,हलाकि अभातक खभा हटाया नही गया है। खम्भे के लिये ग्रामीण एवं ठेकेदार के बीच बवाल बता दें कि बिजली विभाग के द्वारा सर्वे किए गए विद्युत पोल के अनुसार बिजली नहीं लगाये जाने के कारण हितग्राहियों के घर तक विद्युत पोल नहीं पहुंच रहे हैं।ठेकेदार कम खंभा लगकर खंभा बेच रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण एवं ठेकेदार के बीच बवाल मचा हुआ है कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि बिना पैसे के ठेकेदार के द्वारा पोल नहीं लगाई जा रहे हैं जो व्यक्ति पैसे देते हैं उनके यहां

ही विद्युत का पोल लग रहा ह वही ठेकेदार पोल को बचाकर अन्यत्र स्थान पर पोल लगाकर पैसे वसूल किये है,ऐसा पेटी ठेकेदार के ऊपर आरोप लोग लगा रहे हैं अब देखना दिलचस्प होगा कि सर्वे के अनुसार विभाग काम करवायेगा या फिर इसी तरह सडको के किनारे 11के बी खुलातार फैलाकर मौत को आमंत्रण दिलाने में सहयोगी इसी बनेगा और ठेकेदार का मनमानी रवैया चलता रहेगा वही ग्रामीणों ने बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच की मांग

## सीधी विकासखण्ड के प्रस्फुटन समितियों की समीक्षा बैठक संपन्न

सीधी। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद अंतर्गत संचालित ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का प्रस्फुटन ग्राम रामगढ़ नम्बर 2 में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया के अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में विकासखंड सीधी में प्रस्फुटन समितियों द्वारा वर्ष 2023-24 में किए गए कार्यों का प्रतिवेदन पदाधिकारियों ने प्रस्तुत किया। जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया ने कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी प्रस्फुटन समितिया जन अभियान परिषद के सभी बिंदुओं में

सशक्त रूप से काम करे और

शासन की योजनाओं की

के नागरिकों तक पहुंचाए।

शिवदत्त उर्मलिया का प्रस्फुटन प्रस्फुटन समिति रामगढ़ नम्बर में कमांडो बतौर सेवारत थे

द्वारा जल संरक्षण पर भावपूर्णश्रद्धांजलि अर्पित की व्याख्यान दिया गया। स्व. गई। अध्यक्ष अमित कुमार इस दौरान वेदांती शुक्ल द्वारा संदीप मिश्रा को दी गई गौतम ष्स्वतंत्रष्ट ने बताया कि पारंपरिक परिधान भेंट कर श्रद्धां जलि ग्राम विकास स्वर्गीय संदीप मिश्रा एसएफ



किया गया और अमित कुमार गौतम ष्रवतंत्रष्ट द्वारा पौधरोपण, डॉक्टर मनोज सिंह द्वारा स्वास्थ्य, सोन् विश्वकर्मा

ग्राम रामगढ़ में अभिनंदन 2 द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सैकड़ों समाजसेवियो और स्थानीय नागरिकों द्वारा रामगढ़ निवासी स्वर्गीय संदीप मिश्रा के पंचम पुण्यतिथि पर

लेकिन एक दुखद दुर्घटना के दौरान इनका अंतकाल हो गया था। श्री गौतम ने कहा की स्वर्गीय मिश्रा छात्र जीवन से ही देश भक्ति का जज्बा रखते

युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है। इस दौरान स्वर्गीय संदीप मिश्रा के भाई भास्कर मिश्रा को पारंपरिक परिधान और श्रीफल भेंट किया गया। सामाजिक समरसता भोज का हुआ आयोजन प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारियों के साथ रामगढ़ नम्बर 2 में पारंपरिक तरीके से सामाजिक समरसता भोज का आयोजन हुआ, भोजन करने से पूर्व अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया गया और गीत एवं श्लोक के साथ जमीन में बैठ कर पत्तल में एक साथ भोजन किया गया। नगर प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष विनय तिवारी ने कहा कि स्वस्थ्य रहने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है,जिस कारण हमें पूर्वजों द्वारा दी गई पारंपरिक व्यवस्था से

थे, और आज भी रामगढ़ के

उपस्थिति – प्रस्फुटन समितियों के सीधी विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक दौरान डॉ मनोज सिंह परिहार, एडवोकेट प्रदीप सिंह, राजकृपाल जायसवाल निखिल शुक्ल, मुन्ना तिवारी, अंब्रीश सिंह, सुमित गौतम, सोनू विश्वकर्मा सहित नवांकुर संस्था, प्रस्फुटन समितियों के दर्जनों पदाधिकारी उपस्थिति रहे!

# हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र

#### 22 February, 2024

## एटा महोत्सव में समपन्न हुऐ अ.भा.पत्रकार सम्मलेन में पत्रकारिता की दशा एवं दिशा पर हुई व्रहद चर्चा

औद्योगिक विकास प्रदर्शनी के बैनर तले आयोजित एटा महोत्सव के अंतर्गत गत सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार राकेश भदौरिया के संयोजन में अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन का भव्य आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अथिति के रूप में आगरा खंड स्नातक शिक्षक के एमएलसी मानवेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक मारहरा वीरेंद्र लोधी,जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कमालुद्दीन, अपर पुलिस अधीक्षक धनञ्जय सिंह कुशवाहा उपस्थित थे। पत्रकार सम्मलेन की अध्यक्षता वरिष्ट पत्रकार नेत्रपाल सिंह चौहान ने की। इस अवसर पर सर्व प्रथम राहुल गुप्ता एडवोकेट 🦯 पत्रकार ने पत्रकार सम्मलेन के विषय वर्तमान में भारतीय पत्रकारिता की दशा एवं दिशा का विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की दिशा सही है केवल हमें पत्रकारिता के बदलते स्वरुप के अनुकूल पत्रकारिता के स्तर को बनाये

एसएसबी ने अवैध सागवान की लकड़ी

के साथ एक व्यक्ति को दबोचा

कमांडेंट भिनगा के दिशा निर्देशन में उप कमांडेंट निरुपेश कुमार के

अभियान के दौरान जंगल से काटकर ट्रैकटर ट्राली में अवैध रूप से

ले जाई जा रही 13 बोटे सागवान की अवैध लकडी के साथ एक

भारतीय नागरिक को बालापुर गाँव के निकट पकड़ा पूछने पर उस

व्यक्ति ने अपना नाम राजू पुत्र सुरेश कुमार उम्र 37 वर्ष ग्राम चाँदघरी

थाना सिरसिया जिला श्रावस्ती बताया और बताया कि यह लकड़ी मै

गाँव तकिया से सिरसिया लेकर जा रहा था। पकडी गई 13 बोटे

सागवान की लकड़ी, एक ट्रैकटर एवं ट्राली को जब्त किया गया और

जब्त सामान को पकडे गए व्यक्ति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु वन

विभाग ईस्ट सोहेलवा को सुपुर्द किया गया है।

के द्वारा गुप्त सूचना के आधार

नेतृत्व में ई समवाय सोनपथरी

के उप निरीक्षक सुमन कल्याण

पर वन विभाग चौकी बालापुर

के साथ संयुक्त गश्त अभियान

🔲 चलाया गया। संयुक्त गश्त

रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो प्रेमचंद जायसवाल

कालेज के प्राचार्य विजय मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता में आज सबसे ज्यादा शोषण संस्थानों के मालिकों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता करना बहुत ही दुरूह कार्य होता जा रहा है। इस विषय पर बोलते हये पत्रकार शैलेंद्र उपाध्याय ने कहा कि आज पत्रकारिता का दौर बदल गया है। ऐसे में पत्रकार को भी बदलावों के अनुसार बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की पत्रकारिता में खतरे भी अधिक बढ गए हैं। पत्रकार राजीव वर्मा ने अपने उद्बोधन में सोशल मीडिया के बढ़ते हस्तक्षेप का जिक्र करते हुये कहा कि आज की पत्रकारिता बहुत तेज हों गयी है। ऐसे में पत्रकारों का दायित्व और भी बढ जाता है। एटा प्रेस क्लब के अध्यक्ष देवेश पाल सिंह ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता की दशा अच्छी नहीं है। पत्रकार को स्वतंत्र रूप में खबर लिखने के लिए कई बार सूचना पडता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता का स्तर गिर चुका है कि कोई भी अपने बेटों को पत्रकार नहीं बनाना चाहता है। पत्रकार संजीव गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता के रखना चाहिए। इसके बाद विषय मायने बदल गए हैं। ऐसे में

गिरावट आयी है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मण्डल अध्यक्ष राम नरेश चौहान ने कहा कि वर्तमान में ग्रामीण पत्रकारिता

राजकीय जिला कृषि एवं पर बोलते हुये सर्वोदय इंटर नयी दौर की पत्रकारिता में बहुत में पेड़ न्यूज़ जैसी प्रवृत्ति आज भी विधमान है। चुनावों में फिर पेड़ न्यूज़ लगेगी। पत्रकार बबलू चक्रवर्ती ने कहा कि आज भी पत्रकारिता में एक ऐसा वर्ग में भी चुनौतियां बढ़ीं हैं। आज मौजूद है जो ख़बरों से किसी



सोशल मीडिया की मार से ग्रामीण पत्रकारिता भी चुटैल हो रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नेत्र पाल सिंह चौहान ने कहा कि हमारे दौर की पत्रकारिता में प्रतियोगिता नहीं थी आज गला काट प्रतियोगिता है। पत्रकार सुनील मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता की दशा न पहले ठीक थी और न ही आज ठीक है। पत्रकारों को आज भी सही खबर लिखने पर खतरों का सामना करना पडता है। पत्रकारिता करना आज भी कठिन है। पत्रकार उमाकांत

भी प्रकार का समझौता नहीं करता। पत्रकार महेश सोलंकी ने कहा कि बड़े अखवारों में पत्रकारिता करना बहुत आसान है लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं उनको पत्रकारिता की कीमत चुकानी पडती हैं। इस अवसर पर बोलते हये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण कमालुद्दीन ने कहा कि पत्रकारिता को करते समय अच्छे पत्रकार को कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।पत्रकारिता की दशा व दिशा वही होगी जो हम निर्माण करेंगे। अपर पुलिस अधीक्षक कि सोशल मीडिया के दौर में पत्र कारों के सामने सबसे बडा चौलेंज ये है कि वे किस हद तक अपने समाचारों में विश्वस नियता का समावेश करते हैं। इस अवसर पर बोलते हुये वरिष्ट पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता में भी कुछ अयोग्य और अपराधी टाइप के लोग भी पत्रकारिता में घुस आये हैं। इनके विरुद्ध पत्रकारों को ही छटनी अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता को साफ व स्वच्छ बनाये रखने की जिम्मेदारी भी पत्रकारों की ही है। इस अवसर पर बोलते हुये जिला अधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने पत्रकारिता के लिए कोई सर्व मान्य कोड ऑफ कडक्ट की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं विक्की पीडिया के एडिटर रहे हैं और यू ट्यूब के लिए भी काम किया है।उन्होंने कहा कि पत्रकारिता विश्वसनीयता और प्रमाणिकता साफ दिखनी चाहिए। इस अवसर पर बोलते ह्ये मारहरा के विधायक वीरेंद्र लोधी ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों को लिखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता है। मोदी सरकार में पत्रकारों के हितो की रक्षा का पूरा ख्याल रखा

**OWN STATE** 

संस्थानों ने घेर लिया है जिसके कारण पत्रकारिता में पहले जैसी स्वतंत्रता नहीं रही। उन्होंने इस अवसर पर अपने

संगठनों के ब्लॉक अध्यक्ष,।त्च

,छात्र,आंगनवाडी कार्यकत्री

उपस्थित रहे। खंड विकास

अधिकारी द्वारा निपुण छात्रों

गया।शिक्षिका प्रिंसी गंगवार

द्वारा चहक किट की उपयोगिता

पर विचार रखे।वही शैलजा

त्रिपाठी ने बालवाटिका के बारे

में विस्तार से बताया।कार्यक्रम

अध्यक्ष द्वारा बताया गया समय

दायित्वों के प्रति जागरूक रहते

सम्मनित किया

नो डल

शिक्षाक

बोलते हुये मुख्य अतिथि एमएलसी मानवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान में सोशल मीडिया के उदय के कारण मीडिया को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ताकत आज भी सर्वमान्य है और वर्तमान समय में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता भी है। मोदी सरकार में पत्रकारों पर हमले नहीं हो रहे हैं और न ही उनका उत्पीडन हों रहा है। इस अवसर पर बोलते हुये पत्रकार सम्मलेन के संयोजक वरिष्ठ पत्रकार राकेश भदौरिया ने कहा कि वर्तमान पत्रकारिता की दशा एवं दिशा दोनों ही सही है। पत्रकारों को सही लिखने से कोई नहीं रोक सकता और भारतीय पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है। अंत में वरिष्ठ पत्रकार नेत्र पाल सिंह चौहान ने अपने अध्यक्षीय उदबोधन में कहा कि वर्तमान में पत्रकारिता के मूल्यों में भी गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि पहले पत्रकारिता एक मिशन थी और अब इसको कारपोरेट

#### सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी की सुविधा होगी उपलब्ध

सूरजपुर / 21 फरवरी 2024 / कलेक्टर श्री रोहित व्यास के पहल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन के शत प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों ( भैयाथान, ओड़गी, प्रतापपुर, रामानुजनगर) में गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। सुरक्षित



मातृत्व आश्वासन योजना के अंतर्गत सभी चिन्हांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में प्रत्येक माह के 9 एवं 24 तारीख को गर्भवती माताओं का निशुल्क सोनोग्राफी की जायेगी। जिससे गर्भवती माताओं, बच्चों की जांच में आसानी होगी। शासकीय संस्थाओं में सोनोग्राफी सेंटर प्रारंभ होने से मातृ-मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा उच्च जोखिम गर्भवती एवं गर्भस्थ शिशु में जन्मजात विकृति की पहचान करने तथा यथोचित उपचार करने में सुविधा होगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सोनोग्राफी मशीनों का ऑनलाइन पी.सी.पी.एन.डी.टी. पोर्टल के माध्यम से पंजीयन किया गया है। इससे जिले के गर्भवती माताओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं को समय के बचत के साथ-साथ नि शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा प्राप्त होने से आर्थिक हानि होने से बचा जा सके। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जिले के निजी सोनोग्राफी सेंटरों में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सोनोग्राफी की सुविधा प्रदान की जायेगी।

#### व्यापम ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी की



फरवरी 2024 / छ ती स ग ढ परीक्षा मण्डल (व्यापम) ने वि भानन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं

होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी है। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, एनसीईआरटी तथा कृषि विभाग के शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभिन्न व्यावसायिक विषयों में प्रवेश के लिए व्यापम मई एवं जून माह में परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्री. एम.सी ए. एमसीए 24 तथा एम.एससी. नर्सिंग एमएससीएन 2024 में प्रवेश के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 30 मई 2024 रखी गई है। इसी तरह प्री. बीएड, प्री. डीएलडी, के लिए 2 जन 2024, पीईटी एवं पीपीएचटी के लिए परीक्षा की संभावित तिथि 6 जून 2024 होगी। बीएससी नर्सिंग, प्री बीए बीएड, प्री बीएससी बीएड के लिए 13 जून, पीएटी / पीव्हीपीटी प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 16 जून तथा पीपीटी प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 23 जून 2024 है। उक्त प्रवेश परीक्षाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि, सुधार की तिथि एवं परीक्षा का समय व्यापम के वेबसाईट पर बाद में घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाइट अलंचंउ बहेजंजम.हवअ.पद, ीजजचेरू / / अलंचंउंत.बहेजंजम.हवअ पद / पर उपलब्ध रहेगी।

विषयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु आयोजित

#### दूरस्थ इलाके में संयुक्त टीम द्वारा रोका गया बाल विवाह

सूरजपुर / 21 फरवरी 2024 / कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देश पर बाल विवाह लगातार रोके जा रहे है। जिला बाल



संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम बाल विवाह रोकने हेतु तैनात है टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना प्राप्त हुई कि जिले के ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ ग्राम सांवारावां में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह हो रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया को इसकी जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर तत्काल संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु ग्राम सांवारांवा आंगनबाडी कार्यकर्ता को भेजकर उम्र सत्यापन करने पर पता चला कि बालिका का उम्र 17 वर्ष 10 माह 25 दिन हुआ है। बालिका का 18 वर्ष होने में 01 माह 05 दिन शेष है। बालिका एवं उसके परिजनों को समझाइस दी गयी। बाल विवाह केवल एक अभिशाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है। लंडकी यदि 18 वर्ष से एक दिन भी कम रहने पर विवाह होने से वो अपराध हो जाता है। इसलिए बाल विवाह ना करें। समझाइस पर परिजन एवं बालिका भी विवाह नहीं करने पर राजी हुए। साथ ही फोन कर लड़के पक्ष को भी इसकी सूचना दी गई। सभी के सहमत होने से पंचनामा एवं कथन की कार्यवाही पूर्ण की गयी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, परियोजना अधिकारी श्री इमरान सिद्धीकी, सेक्टर पर्यवेक्षक कुमारी श्वेता सोनवानी, चाईल्ड लाईन से जनार्दन यादव, थाना ओडगी से अमेन्द्र दुबे, अशोक राजवाडे उपस्थित थे।

## सभागार विथरी चौनपुर में हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का आयोजन किया गया

श्रावस्ती। ६२वीं वाहिनीं सशस्त्र सीमा बल रबीन्द्र कुमार राजेश्वरी

अतिथि के रूप में खंड विकास

बरेली – आज ब्लॉक किया गया।जिसमें मुख्य अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी किया गया।जिसमें सभी



ष्हमारे आंगन हमारे अधिकारी वीरपाल जी की।कार्यक्रम का संचालन ऋतू

समय पर शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा ऐसे कार्यक्रम कराये जाते रहे है।ऐसे

कार्यक्रमो से बच्चे उत्साहित

#### बच्चेष्कार्यक्रम का आयोजन उपस्थित रहे।कार्यक्रम की मिश्रा और शुमाइला के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सात दिवसीय विशेष शिविर का हुआ

प्रदीप कुमार गुप्ता बरेली।बरेली कॉलेज बरेली में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र इकाई द्वितीय एवं तृतीय के सात दिवसीय विशेष शिविर का बुधवार को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय तथा विशिष्ट अतिथि वाणिज्य विभाग के वरिष्ट प्रोफेसर डॉ अनूप कुमार

ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप

प्रज्जवलित कर किया। कार्यक्रम

अधिकारी डॉ बृजवास कुशवाहा

ने शिविर के गत सात दिनों में संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत किया। बढ़ाते हुए कहा कि स्वयं सेवक



किए विभिन्न गतिविधियों की

प्राचार्य ने स्वयं सेवकों का मनोबल के रूप में गत सात दिनों में जो

कुछ भी सीखा है उसे अपने जीवन में भी अमल करें और राष्ट्र के निर्माण में सदैव तत्पर रहें। प्रो अनूप कुमार ने स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि रवैच्छिक सामाजिक सेवा के माध्यम से छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना ही एनएसएस का प्राथमिक उद्देश्य है और आप स्वयं सेवक के रूप में सेवा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर यशार्थ गौतम ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए स्वयं सेवकों को सदैव अपने

हुए सदैव सक्रिय रूप से कार्य करने को प्रेरित किया। बच्चों ने शिविर को यादगार बनाने को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया।इस मौके पर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर आलोक खरे, प्रोफेसर एस० एस ०शर्मा, स्थापना प्रभारी डॉ दयाराम, डॉ विकास शर्मा, डॉ प्रतीक वर्मा, डॉ राहुल मिश्रा, डॉ शैल चौधरी, डॉ ईशा धवन, डॉ संजय कुमार, डॉ विवेक त्रिपाठी, डॉ अखिलेश सिंह सहित अनेकों शिक्षक एवं दोनों

इकाईयों के स्वयंसेवक मौजुद रहे।

## सशस्त्र सीमा बल द्वारा वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन

बल, सीमांत मुख्यालय लखनऊ

श्री रत्न संजय कटियार एवं कमांडेंट 62 वी वाहिनी एसएसबी श्री रवींद्र कुमार राजे श्वरी निर्देशानुसार एसएसबी की सभी सीमा चौकियों में काउंटरपार्ट नेपाल

के सशस्त्र बलों के साथ एसएसबी के शहीद जवानों के नाम पर मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय और इसके द्वारा दोनों देशों के सांस्कृतिक और पारंपरिक रिश्तों की अटूट डोर को और अधिक मजबूत किया

लड़ते हुए देश के लिए अपना



ककरधारी'के बीच मुकाबला हुआ और ंचि नें 3 - 1 अपने नाम किया। सर्वप्रथम मैच की शुरुआत ककरधसरी कैम्प प्रभारी निरीक्षक 'रघुनाथ द्वारा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त

सर्वोच्च बलिदान देने वाले

राजस्थान के दौसा निवासी एसएसबी के शहीद जवान घनश्याम गुर्जरकी याद में 30वी बटालियन नेपाल ।च्थ गंगापुर कैम्प और एसएसबी ककरधारी कैम्प के जवानों के मध्य एक

आनंद लेने के लिए सभी जवान गंगा प्र और एसएसबी एकत्रित थे। इस अवसर पर प्रमुख खिलाड़ी प्रतिभागियों में 30वी बटालियन नेपाल ।च्थ्र गंगा पुर कैम्प की ओर से निरीक्षक / सामान्य— 'शेखर ळ६ आरक्षी प्रेम बहादुर, थमन नेपाली ,इीपउ थापा, गोपाल कार्की ,अर्जुन बूढ़ा, गोपाल , लाल बीम रावत जब कि ैंट की ओर से मुख्य आरक्षी / सामान्य ,राकेश मुख्य आरक्षी समान्य एनपी सिंह, हरेन्द्र कुमार मुख्य आरक्षी / संचार, बबन आरक्षी / सामन्य, रोहित कुमार सिंह, दीप ज्योति रावत, करने के पश्चात हुई। इस

#### दुअरा के शिक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह का हुआ निधन, दान किये शरीर को लाया रिपोर्ट देवी पाटन मंडल ब्यूरो जाय। इसी क्रम में देश की वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अवसर पर दोनों ही टीमों के गया श्याम शाह मेडिक कालेज रीवा प्रेमचंद जायसवाल सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के ककरधारी कैम्प के प्रांगण में खिलाड़ियों में बहुत ही तगड़ा त्योंथर / त्योंथर तहसील अंतर्गत शिक्षक राजेन्द्र कुमार सिंह महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा गांदरबल में आतंकवादियों से किया गया। इस मैच को ।च्थ संघर्ष देखने को मिला। मैच का पिता स्वर्गीय अमर सिंह निवासी भगवानपुर दुअरा जो संकुल

देउर कटरा में शिक्षक थे उनका आज तड़के 3 बजकर 35 मिनट पर निधन हो गया। जिनके निधन से पूरे त्योंथर क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है क्योंकि वो एक

आदर्श शिक्षक के साथ साथ समाजसेवी थे जो गरीबो बंचितो के हर दुख सुख में खड़े रहते थे जिनकी लोकप्रियता से त्योंथर क्षेत्र ही नही पूरे जिले में है उनके विचार,आदर्श और अच्छाई को सदियों तक याद किया जायेगा। बताया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल मे ही 21/05/2018 को अपने शरीर को दान दे दिए थे ताकि मरणोंपरांत उनके शरीर का एक एक अंग दूसरे के काम आ सके। जिन्हें दान किए गए शरीर को उनके इच्छानुसार

श्यामशाह मेडिकल कालेज रीवा में लाया गया है

Use gloves while doing household chores
Household chores such as washing utensils

them dry and rough. The detergents and the harsh

soaps that we use to do these chores are the reason

behind it. If you are doing these household chores,

your hands by using rubber gloves that do not let

especially in the winters, make sure to protect

the water or the soap harm your hands.

or clothes can also damage your hands and make

#### How to style a traditional sofa

Complement

Display antique decor

antique or vintage

decorative items,

such as ornate

photo frames,

These objects

Brighten up with

classic lighting

Elevate the classic style

room and seating with

traditional-style lamps

with decorative bases and

lampshades. Chandeliers

or sconces can also add

a touch of richness and

elegance to the space.

mirrors, framed

artwork, curios

and collectables.

add character and

Prefer to add

traditional couch or sofa Lis a type of seating furniture that is designed in a classic and timeless style. Traditional couches typically have several distinctive characteristics like ornate wood trim, rich upholstery, button tufting, cabriole legs, classic silhouettes, and a formal appearance. Styling a traditional-style couch can form a classic and elegant look in your living space! Here are some expert tips on how to style a

it with

pillows in

like floral.

or stripes.

Add throw

classic patterns

damask, toile,

These patterns

are commonly

associated with

Mix and match

traditional design.

textures, colours

and sizes for added

interest and drama!

pillows with varying

traditional

with coordinated Pick a drapes or curtains beautiful Go for heavy, floor-Persian or length drapes or curtains with oriental classic patterns, like floral, area rug in damask, paisley, stripes, etc to rich colours complement the traditional and intricate \ look of the couch. Select patterns to colours that match or elevate the complement the traditional feel couch. of the room. Always

history to the room! select a medium or large-size rug that can accommodate all four or at least the front two legs of the traditional sofa. The bigger rug is a clever solution to anchor or differentiate the seating area.



Choose the right colours

Traditional couches often come in classic hues like deep browns, rich reds, and dark greens. Select decorative elements in complementary colours, such as muted neutrals to form a harmonious colour scheme.

Milk contains

calcium, an alkaline mineral

that works to

neutralize acid

in contact. Milk

calcium, making

it one of the best

foods to reduce

stomach acid. If

from stomach

acidity, soothe

your stomach by

gulping down a

glass of milk.

you are suffering

contains large

amounts of

Personalize with Accessories

Add personal touches with objects like family photos in classic frames, decorative vases, memorabilia and other accessories that reflect your personality, style, history, and story! Feature symmetry

Traditional design often emphasizes symmetry. Arrange the

furniture i.e. traditional couch and decor in a balanced and symmetrical way for a classic look.

 Choose classic coffee and side tables Select wooden coffee and side tables with an ornate

detailing or antique finish. These tables need to match the overall aesthetic of the traditional style room. Having these handy pieces of furniture beside the couch can make the seating zone truly practical and decor-perfect!

Keep your hands moisturised

Dryness tends to make your hands rough and cracked. Not only your face, but your hands also need a moisturisation boost. Keeping your hands hydrated is the easiest hack to get baby-soft hands. You can either choose a store-bought moisturiser for that or can use natural oils like coconut oil, almond oil and olive oil to keep your hands soft, supple and

Washing your hands frequently can turn your hands dry which makes them rough. The reason is the soap you use to wash your hands. Soap has a higher pH as compared to our skin and this disturbs the pH balance of

our skin. Soap also contains harsh chemicals that can strip the moisture of your hands. Instead of soap, use a gentle hand wash to wash your hands.

#### Baking soda, honey and lemon

Baking soda is an antibacterial agent that helps to keep your hands clean and healthy. While lemon improves the appearance of your hands, honey locks the moisture in your skin to give soft, supple and beautiful hands

**Ingredients:** 2 tsp baking soda, 2 tsp honey, 2 tsp

**Directions for use:** Mix all to scrub in between your fingers and around your nails. Once done, let it sink into your skin for another 5 minutes. Rinse it off thoroughly later.



## How to make your hands soft

4 Avoid hot

water

your hands or take a bath can

strip the moisture of your hands

Avoid using hot water to cleanse

making them dry and rough.

vour hands. Use cold

water or lukewarm

water instead

Using hot water to wash

#### Invest in a hand cream

oft and beautiful

hands add to our

charm and are

desired by all. Everyday

chores, the cold winter

weather, exposure to

harsh chemicals and

make our hands dry,

rough and damaged.

frequently doesn't

really help. But with

expose our hands to,

how do we keep them

soft? To get soft and

less work than you

we are here to share

you can follow and

beautiful hands takes

would imagine. Today,

with you some amazing

tips and remedies that

make your hands soft

naturally. Let's begin.

all these mistakes that

we make and things we

lack of proper care can

And washing our hands

Your hands need both nourishment and moisturisation. Hand cream can come in really handy to make your hands soft. It counters the loss of moisture in your hands. After every hand wash, treat your hands with some hand cream. It contains ingredients that make your hands soft. A few ingredients you want to look for in your hand cream areglycerin, dimethicone and hyaluronic acid.

These help retain

moisture in your hands.

6 Protect your hands Sun Damage And Cold

Winds Sun damage is the worst kind of damage that can happen to your skin. When we think of sun damage, we only our hands. sun damage are putting on morning, ensure

hands as well. Apart from the can also make your hands dr and rough. To protect your whenever you go out.

#### Home remedies to give nourishment boost

The tips mentioned above are the lifestyle changes that you need to make to get soft hands. But. there are certain measures you can take to level up the nourishment and make your hands softer. Olive oil and sugar

Olive oil adds moisture to your hands while the granular sugar gently exfoliates the skin to get rid of the roughness and make your hands soft and beautiful.

**Ingredients:** 1/2 tsp olive oil, 1 tsp sugar.

**Directions for use:** Take the sugar in your palms. Add olive oil to it and using your other palms rub and scrub your hands. Massage your hands for 2-3 minutes. Leave it on for another minute. Rinse it off using lukewarm water later.

#### Butter and almond oil

Rich in vitamin A and fatty acids, butter nourishes your hands and adds a natural glow to them. Almond oil has excellent emollient properties that will improve the texture of your hands and make them soft. **Ingredients:** 1 tsp

butter, 1 tsp almond oil. **Directions for use:** In a bowl, mix the two

ingredients together. Take this mixture on your palms and scrub your hands for about a minute. Let the mixture sink into your skin for another minute. Rinse it off later using warm water and pat your hands dry. the ingredients in a bowl. Apply the mixture to your hands and scrub it gently on your hands. Make sure

#### o you often suffer from stomach acidity after having a meal? If yes, then you need to include certain foods in your diet that will cut down on stomach acidity. Stomach acid to a certain level is required to digest the food and allow the body to absorb nutrients. However too much stomach acidity occurs when there is acid backflow from the stomach into the oesophagus. Sometimes, stomach acidity can cause other problems too like stomach ulcers and heartburn. This causes a discomfort in the oesophagus. So, it is rather important to reduce your stomach acid by eating certain foods that will aid in reducing stomach acidity. Eating the right kind of foods is the key to controlling stomach acidity.

Here are 10 foods

stomach acid.

that reduce excess

## **Foods that reduce** excess stomach acid

Herbal tea

Herbal teas are considered to be among the best teas to fight against stomach acid. They calm your intestines and reduce the production of more acid. When you are drinking herbal teas, cool it slightly and sip the tea slowly, so that it acts better in your

> Apple cider vinegar Apple cider vinegar or apples are widely regarded as effective treatments for stomach acidity. Although apples are acidic in nature, they contain healthy acids and enzymes that help neutralize the stomach acid inside vour hody

> > **■** Ginger Ginger is another wonderful ingredient to soothe stomach acid instantly due to its anti-inflammatory properties. It has the ability to improve digestive problems and cures stomach acidity. Try chewing a raw ginger piece or make yourself ginger tea, the next time you suffer from

stomach acidity

Oatmeal is a

breakfast favourite for many. Whole grain oatmeal is an excellent source of fibre that absorbs acid in the stomach and it reduces the symptoms of acidity. Fibre reduces constipation, promotes intestinal health, and keeps the body full for a longer period of time. **■ Green smoothies** 

Opt for dark green vegetables and make smoothies out of it. You will get all the antioxidants and nutrients in one go and it will help to reduce stomach acid quickly. Green juices help to curb inflammation in the body and it digests easily in the stomach. You can drink green smoothies

before a

meal.

Aloe vera Aloe vera is a natural

cooling agent that has the ability to treat heartburns and stomach acid. It has healing properties, when consumed, which will benefit you in reducing the stomach acidity. You can have aloe vera juice or use it in food recipes to prevent stomach acid.

Raw salad
Raw salads are naturally alkaline and full of digestive benefits. Salads prevent inflammation and stomach acidity. It is because a salad consists of leafy greens, carrots, cucumbers, celery, asparagus, and lettuces, which are some of the most powerful foods for reducing inflammation.

Olive oil helps with heartburn and indigestion and provides anti-inflammatory benefits. Drizzle olive oil on your foods, instead of cooking with it. Avoid using canola oil peanut oil and other vegetablebased oils because they are

more acidic in nature.

Chicken does not cause acidity, as it has proteins that will help in preventing stomach acidity. Don't deep fry or pan fry the chicken; instead grill or sauté the chicken and avoid adding too many spices. Too much spices can increase the stomach acidity.

## Health Benefits: Pomegranate seeds

Benefits of consuming Arils Pomegranate seeds contain 3.5 grams of fiber. Adding it to your daily diet especially for women omegranate is one of the very best fruits you would find in the market. Everyone loves it not only for its Arils is taste but for its a fancy name for health benefits too. Though

pomegranate seeds. The best health benefits of pomegranate seeds is that it is loaded with key vitamin and minerals. These minerals are good for you to consume as it helps to ward off health problems.

most beneficial factor of the fruit. For one reason these pomegranate seeds have a high content of iron present. It is a good fruit to boost fertility, boost your immunity and also help you when sick with a common cold. The pomegranate should be present in one's diet. The tart and juicy arils, the edible seeds that come from the fruit's "shell," contain a big helping of nutrition.

many resent

chewing and

pomegranate

said that these

seeds are the

swallowing

seeds, it is

to keep your bowels healthy and working properly. It is also good for women who want to get pregnant You will only get a small amount of iron from pomegranate seeds. However, this iron helps protect your immune system. It also ensures you have plenty of oxygen circulating through your body. According to

is good. Fiber promotes

efficient digestion. This helps

research it is said that a 1/2-cup serving of pomegranate seeds supplies a good amount of vitamin K to the body too. This nutrient is essential for proper blood clotting. These are some of the health benefits of pomegranate seeds. The next time you eat

this garnet fruit, make sure to enjoy the seeds

Impact of personality If a person has

sad all the time Trouble in falling asleep or

sleeping much more than normal. Fatigue or loss of energy.

Immense weight loss or weight Facing difficulty in

concentrating or thinking.

Suicidal thoughts.

#### Is chemical

for depression? It is true that chemical imbalance is also the reason for the cause of depression, but it does not mean that by just having low or high chemicals, it can trigger depression in a person. Actually, there are numerous chemical reactions that take place both inside and outside of our brain, depending on the mood and situations. All these chemical reactions are to get into depression.

## What causes depression in the brain?

**■ Genes and depression**The seriousness of depression

differs from person to person, two individuals can show similar symptoms of depression, but the inner strength of the person only decides the complexity of the situation and treatment as well. There are people who are prone to get into depression sooner, whereas some of them are stronger to tackle traumatic situations without getting into depression. This difference between two people is actually because of the difference in genes that influences the reaction to situations and even response to

Impact of brain on depression

Still, many people think that emotions come from the heart; but it has been proven scientifically that all kinds of emotions come from the brain. The mood of a person is completely regulated by the brain. It's not just brain chemicals, but nerve cell growth, nerve circuits. nerve cell connections and working conditions of all these together that actually have more impact on depression. Medical science is not able to completely understand the reason for mood swings.



Out of many reasons, extra production of stress hormones is also a big reason for depression. Hormones will be released as per the reaction of a person to a stressful condition, but can it be really considered as the

a disease? cause of depression? Studies have found that depressed people will be carrying extra stress hormones in the blood and which biologically. actually can make them feel exhausted

Clinical studies have

will be totally disastrous like dreams than a normal person that will cause exhaustion after getting up.

experts, smoking is also a very big reason that pushes a person into depression. Actually still, there is doubt in the common populace of whether smoking pushes them into depression or people with depression pick up smoking. However, clinical trials have proved that nicotine has the capability of affecting the neuro -transmission

#### Depression and family

history Studies have found that depression can be a genetically inherited disorder and it can run through families. However, it does not mean that you will have depression if your close relatives or parents are suffering from depression related issues. Personal factors and life circumstances have more influence on depression.



low self-confidence or affinity to worry too much or has the personality like a perfectionist, then there are more chances of the person to get into depression while facing even small traumatic issues.

Drug or alcohol abuse People who are not satisfied with their life tend to lean into the use of drugs and alcohol. However, it has been proven that excess use of alcohol and drugs can push the person more into depression with other disorders

Life events This has been proven long back that if a person is living in difficulties for a long time, then it can push the person into depression. Situations like prolonged unemployment, bad relationships, loneliness, and work stress can definitely trigger depression.

#### condition that takes place because of the chemical imbalance that happens inside the brain, but this simple statement does not explain the serious situation of the person who is into depression. Studies have proven that depression just is not initiated by the lack or excess of chemicals in the brain. There are many factors

edically.

that can lead to depression like faulty mood regulations, genetic issues, traumatic life routine, wrong medications, and other medical ailments. Depression will bring the person to a state of mind where there are no joyful feelings felt. Depression directly affects in a negative way like the way you think, feel and act. Depression causes sadness and the person suffering from depression loses interest in everything. For example, lack of interest

in activities he/she loved

before, decrease in mental

ability, etc.

Depressed mood or feeling

Feeling of guilt or feeling worthy less or feeling like a loser.

## imbalance responsible

responsible for a person

Is depression

Depression cannot be considered as a disorder because it is not a biological disorder and there are no physical symptoms visible. As per clinical studies, only 10 percent of depression can be related

shown that the way of thinking of a stressed person 'All or Nothing'. A person in stress will have more

inside the brain that results in higher levels of dopamine and serotonin. This is the reason people who have smoking habits tend to get into depression



# Wedding **bells Actress shines in traditional**

Punjabi attire at her mehendi ceremony

> eality TV star Divya Agarwal embraced tradition and elegance as she adorned herself in a stunning ethnic Punjabi ensemble for her mehendi ceremony, and flaunted minimal henna adorn-

ing her hands.
She is all set to tie the knot with her boyfriend, restaurateur and 'ginfluencer' Apurva Padgaonkar.

The *mehendi* ceremony which was held at her residence, after the grand cocktail night, features the MTV Ace of Space 1 winner in a heavily embroidered Punjabi outfit -- a yellow long kurta, red sharara, and a multicoloured transparent dupatta. The look was rounded off with a

> braided with a paranda. The groom Apurva wore a pink *kurta pyjama*, and a matching jacket. The duo happily and playfully posed for the lenses holding onto each other closely. One picture shows Apurva adorably

minimal makeup, and her hair

planting a kiss on his la-dylove's forehead. A snap shows Divya's henna-adorned hands featuring minimal intricate design. Earlier, Divya had said they are getting

married at home, at the terrace. 'It will be a simple and sweet wedding. I used to see my family in Punjab, the wedding

used to happen at home only. "Food used to be cooked at home and guests used to sleep togeth-

> tresses laid out for them at home We want to recreate the essence of those kind of

marriages, she said.

outside a

dental

er on the mat-



2023, Farhan Akhtar revealed that Ranveer Singh will be the new Don in the third film of the hit franchise with a special announcement post. In the teaser, Ranveer is seen seated in

a building with his back to the camera. He lights up a cigarette, introduces himself as Don, and then turns to face the He wears a leather jacket and matching

pants for the dapper look and accessorizes it with leather boots and matching sunglasses Shah Rukh Khan and Amitabh

Bachchan played the character in the earlier versions.

An official announcement for the remaining cast of *Don 3* is still awaited. The Don series has always been associ-

ated with compelling stories, exhilarating action, and unforgettable moments. Don starred Shah Rukh Khan,

Priyanka Chopra and Boman Irani in prominent roles. The film was released in 2006 and won Best Asian Film at the Neuchatel International Fantastic Film Festival. Later, its sequel was released in 2011 and was declared a hit.

Actor Hrithik Roshan was seen in a special appearance role in *Don 2*. Farhan's directorial was a remake of 1978's Don, featuring Amitabh Bachchan in the lead role. A new era of *Don* will begin in 2025

# Terrific

Salman Khan and Ram Charan launched the Hindi and Telugu trailers of *Operation* **Valentine** 

alman Khan and Ram Cha-

ran launched the trailer of

Varun Tej's upcoming film

Operation Valentine. The trailer unveiling made fans ex-

cited since two big stars of Bolly-

veil the patriotic thriller.

wood and South came together to un-

Salman Khan took to social media

to share the Hindi trailer of the film

Dekha Jayega!... Glad to launch this

terrific #OPVFinal-

wishes to

31st!"

Strike....My best

@IamVarunTej

and team #Op-

*tien* for March

Fans

eration Valen-

and wrote in the caption, "Jo Hoga



were very excited after the trailer was shared and thronged the comment section.

Ram Charan too shared the Telugu trailer of the film on social media. The caption read, "The #OPVFinal-Strike is here and looks massive. Very proud of my brother @IAmVarunTej for always picking up unique films and this time a film that whole the nation will be proud of! Good luck to the entire team of #OperationValentine Looking forward to the film on March 1st!".

Directed by Shakti Pratap Singh, Operation Valentine will also star Manushi Chhillar, Navdeep and Mir Sarwar. The film will showcase our Air Force heroes on the front lines and the challenges they faced as they fought one of the biggest, fiercest aerial attacks that India has ever seen. Operation Valentine is scheduled to be released in theatres on March 1.

For the unversed, Varun Tej predominantly works in Telugu Cinema. He has worked in several popular films including Kanche, Mister, Fidaa, Tholi Prema, Nanna Koochi, F2: Fun and Frustration, Aladdin, Ghani and Gandeevadhari Ariuna.

# PERFORMANCE

here's great news for actor Kartik Aaryan's fans. The Satya Prem Ki *Katha* star has been chosen to perform at opening ceremony of the second season of Women's Premier League (WPL). The update was shared on the official Instagram handle of WPL.

The second season of the WPL will kick off on February 23 with last year's finalists Mumbai Indians and Delhi Capitals competing in the opening match in Bengaluru at M. Chinnaswamy Stadium. The tournament will go on till March 17 and will be held in Bengaluru and Delhi.

The summit clash will take place on March 17 in New Delhi while the eliminator will be played on March 15. The upcoming edition will be hosted by Delhi and Bengaluru. All matches will start at 7:30 pm. The maiden event was held in March 2023 in Mumbai and Navi Mumbai.

This time, two vibrant cities will share the spotlight, promising a double dose of cricket fever for fans across India. Five teams - UP Warriorz, Royal Challengers Bangalore, Gujarat Giants, Delhi Capitals, and Mumbai Indians - are ready to put their best foot forward, vying for the prestigious trophy.

Teams have already picked players for their squads after the conclusion of the WPL 2024 auction in December last year.

The WPL's 2024 season will follow the same structure as the previous year, with the top three sides from the league stage qualifying for the playoffs.



